



भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10—दिसम्बर 16, 2005 (अग्रहायण 19, 1927)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10—DECEMBER 16, 2005 (AGRAHAYANA 19, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

बैंपविवि. सं. पीएसबीडी. 390/16.01.130/2005-06--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में 17 अक्टूबर 2005 से प्रभावी निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे, अर्थात् :--

“सैंचुरियन बैंक लिमिटेड” शब्दों को

“सैंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

उषा थोरात
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एकजम/89/भाग-II--

सा.का ----- जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -- दिल्ली

----- ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

अनुसूची-1

क्र. सं.	पूर्व अधिसूचना सं० एवं तिथि	स्थापना का नाम	छूट की अवधि
1	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/दिनांक 13.1.99	मे० मोटा सिंह सी. से०माडल स्कूल (डीएल/5811)	1.10.01 से 30.9.04 1.10.04 से 30.9.07
2	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/1002 दिनांक 15.10.04	मे० अहलकान पब्लिक स्कूल (डीएल/12563)	1.10.02 से 31.12.04 1.1.05 से 31.12.07
3	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/1002पार्ट-1।/दिनांक 15.10.04	मे० अहलकान पब्लिक स्कूल (नर्सरी) (डीएल/12564)	1.1.02 से 31.12.04 1.1.05 से 31.12.07
4	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/1683 दिनांक 21.6.99	मे० इनसिलको लि० डीएल/11577	1.8.97 से 31.7.00 1.8.00 से 31.7.03 1.08.03 से 31.7.06
5	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/1000 दिनांक 28.5.02	मे० एस्कोर्ट्स लि० डीएल/776	18.09.00 से 17.9.03 18.09.03 से 17.9.06
6	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/ दिनांक	मे० जे. के. कारपोरेशन लि. डीएल/2806	1.3.05 से 29.2.08
7	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/2659	मे० को ट्रेडल्स प्रा० लि० (वास्को) डीएल/15228	24.6.00 से 23.6.03 24.6.03 से 23.6.06
8	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/1026 दिनांक	मे० जापान ट्रेडल्स सर्विसेस डीएल/19124	1.12.04 से 30.11.07
9	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/399 दिनांक 8.6.04	मे० ओ के एस स्पेन टेक प्रा० लि० डीएल/23647	1.8.04 से 31.7.07
10	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/2083 दिनांक 5.7.99	मे० स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन इंडिया लि० डीएल/791	1.4.02 से 31.3.05
11	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/4007 दिनांक 16.1.01	मे० बेक्स ग्लोबल इंडिया लि० डीएल/14261	1.2.99 से 31.1.02 1.2.02 से 31.1.05
12	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/984 दिनांक 17.10.04	मे० पेटा मेड हॉस्पिटल डीएल/19594	1.9.04 से 31.8.07
13	2/1959/डीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1।/1892 दिनांक 27.1.04	मे० अरावली सिन्योरिटिस एण्ड फाइनेंस लि० डीएल/8370	1.1.05 से 31.12.07

अनुसूची - 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात्त नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा स्वेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के आधीन समझ-समझ पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को बिधि चारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, आधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो वह किया जा सकता है ।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जात है और पॉलिसी को व्यग्त हो दिया जाता है तो छूट रह की जाती है ।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्दातो/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

(सूचना प्रदाता)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एकजम/89/भाग-II--

सा.का ----- जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -----

आन्ध्र प्रदेश १) ----- ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

अनुसूची-1

क्र. सं.	पूर्व अधिसूचना सं० एवं तिथि	स्थापना का नाम	छूट की अवधि
1	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2062 दिनांक 3.5.93	मै० कास्टल पैकेजिंग गुन्डूर एपी/11809	1.12.93 से 30.11.96 1.12.96 से 30.11.99 1.12.99 से 30.1.02 1.12.02 से 30.11.05
2	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2062 दिनांक 3.5.93	मै० चैतन्य पैकेजिंग, गुन्डूर एपी/19103	1.12.93 से 30.11.96 1.12.96 से 30.11.99 1.12.99 से 30.1.02 1.12.02 से 30.11.05
3	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2062 दिनांक 3.5.93	मै० वेमसी ट्रेड लिक्स, गुन्डूर एपी/19102	1.12.93 से 30.11.96 1.12.96 से 30.11.99 1.12.99 से 30.1.02 1.12.02 से 30.11.05
4	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2396 दिनांक 2.11.98	मै० सेंट पीटरस हाई स्कूल, वारांगल ए एपी/19637	1.3.00 से 28.2.03 1.3.03 से 28.02.06
5	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/1731 दिनांक 23.8.95	मै० कौसलवा माटरस प्रा० लि०, विजयवाडा, एपी/3812	28.12.96 से 27.12.99 28.12.99 से 27.12.02 28.12.02 से 27.12.05
6	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/	मै० श्री सूर्या मोटर वर्क्स, विजयवाडा एपी/2014	1.3.03 से 28.02.06
7	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/3532 दिनांक 10.1.99	मै० नवाथा रोड ट्रांसपोर्ट, विजयवाडा एपी/13624	1.8.04 से 31.7.04
8	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/5398 दिनांक 14.1.00	मै० क्रान्थी रोड ट्रांसपोर्ट प्रा० लि०, विजयवाडा मै० बी.एस.टी. इन्डस्ट्रीस लि० एपी/14616585	1.3.04 से 28.2.07
9	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/995 दिनांक 7.5.02	मै० बी.एस.टी. इन्डस्ट्रीस लि० एपी/146	24.6.03 से 23.6.06
10	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/192 दिनांक 18.1.93	मै० एन.एस.टी. मैथ्यूस पब्लिक स्कूल, विजयवाडा एपी/जीटी/16571	1.7.92 से 30.6.95 1.7.95 से 30.6.98 1.7.98 से 30.6.01 1.7.01 से 30.6.04 1.7.04 से 30.6.07
11	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/5299 दिनांक 12.1.00	मै० स्पेक्ट्रा फूड्स एण्ड ब्रेक्रीज प्रा० लि०, विजयवाडा एपी/जीटी/13987	1.1.04 से 31.12.06
12	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2061 दिनांक 9.9.97	मै० दि आन्ना शूगर लि०, तेनूकू एपी/47	1.8.99 से 31.7.02 1.8.02 से 31.7.05

13	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2061 दिनांक 9.9.97	मै0 दि आन्ध्रा शूगर लि0, तेनूकू एपी/1622	1.8.99 से 31.7.02 1.8.02 से 31.7.05
14	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2061 दिनांक 9.9.97	मै0 दि आन्ध्रा शूगर लि0, तेनूकू एपी/2228	1.8.99 से 31.7.02 1.8.02 से 31.7.05
15	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2061 दिनांक 9.9.97	मै0 दि आन्ध्रा शूगर लि0, तेनूकू एपी/2229	1.8.99 से 31.7.02 1.8.02 से 31.7.05
16	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2061 दिनांक 9.9.97	मै0 दि आन्ध्रा शूगर लि0, तेनूकू एपी/2904	1.8.99 से 31.7.02 1.8.02 से 31.7.05
17	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2061 दिनांक 9.9.97	मै0 दि आन्ध्रा शूगर लि0, तेनूकू एपी/6756	1.8.99 से 31.7.02 1.8.02 से 31.7.05
18	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2061 दिनांक 9.9.97	मै0 दि आन्ध्रा शूगर लि0, तेनूकू एपी/31674	1.8.99 से 31.7.02 1.8.02 से 31.7.05
19	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2061 दिनांक 9.9.97	मै0 दि आन्ध्रा शूगर लि0, तेनूकू एपी/35134	1.8.99 से 31.7.02 1.8.02 से 31.7.05
20	फाइल नं0 1(67)/2003	मै0 पी एस सी बोस ऑटोमोबाइल्स , विजयवाडि एपी/4522	1.3.04 से 28.2.07
21	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/4868 दिनांक 12.3.98	मै0 श्री सान्थ्या सत्या साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मैडिकल साइंस, प्रशान्तग्राम एपी/25594	1.11.00 से 31.10.03 1.11.03 से 31.10.06
22	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/1467 दिनांक 11.6.99	मै0 गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुंद्री एपी/17593	1.3.01 से 29.2.04 1.3.04 से 28.2.07
23	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/995 दिनांक 8.5.02	मै0 उषोदया पब्लिकेशनस, विशाखापटनम एपी/5321	22.12.02 से 21.12.05
24	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/6079 दिनांक 14.2.00	मै0 दि आन्ध्रा पेट्रो कैमिकल्स लि0, तेनूकी एपी/17551	30.03.02 से 29.3.05
25	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/3532 दिनांक 10.1.99	मै0 दि कृष्णावेली एग्रो ऑयल प्रोडक्ट्स लि0 एपी/जेटी/16507	1.7.01 से 30.6.04 1.7.04 से 30.6.07
26	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/1869 दिनांक 12.1.04	मै0 ऊषा किरण टेलिविजन एपी/36424	1.3.04 से 28.2.07
27	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/1008 दिनांक 20.5.99	मै0 सिटी कारडिएक रिसर्च सेंटर लि0 एपी/23580	1.5.01 से 30.4.04 1.5.04 से 30.4.07
28	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2791 दिनांक 6.11.97	मै0 सिरिस लेबोरेट्रीस प्रा0 लि0 एपी/	1.11.97 से 31.10.00 1.1.0 से 31.0.03 1.2.0 1.11.03 से 31.10.06
29	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/2807 दिनांक 20.11.00	मै0 पी ई इंजिनियर्स प्रा0 लि0 एपी/4803	24.6.00 से 23.6.03 24.6.03 से 23.6.06
30	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89 /पार्ट- I/149 दिनांक 23.01.92	मै0 अनजानेया रोलर फ्लोर मिल्स प्रा0 लि0 एपी/16320	1.4.04 से 31.3.07

अनुसूची-1

क्र.सं.	स्थापना का नाम	छूट की अवधि
1	चेमिनार ड्रग्स (डॉ रेड्डी लेब) विशाखापटनम, कोड एपी/20358	1.7.02 से 30.6.05
2	मै0 टाइकुन एण्ड हेरीटेज रेस्टोरेन्ट्स, विशाखापटनम एपी/36703	1.9.01 से 31.8.04 1.09.04 से 31.8.07
3	मै0 साइनेरजीस टूरे ऑटोमोटिव लि0, एपी/31883	1.4.01 से 31.3.04 1.4.04 से 31.3.07

अनुसूची - 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जात है और पॉलिसी को व्यंगत हो दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्दातो/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सूरज शर्मा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एकजम/89/भाग-II--

सा.का ----- जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -----
----- तमिलनाडु ----- ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

अनुसूची-1

क्र. सं.	पूर्व अधिसूचना सं० एवं तिथि	स्थापना का नाम	छूट की अवधि	
			से	तक
1	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1/1 दिनांक 3.4.04	मै० पोप दि कॉग माचिस फैक्टरी, कांवलपट्टी (टीएन/2746)	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
2	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 399 दिनांक 8.6.04	मै० रवेफा टैलिंग प्रा० लि०, होसूर (टीएन/35170)	01-11-03	31-10-06
3	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 3101 दिनांक 30.11.04	मै० त्रिनिती नसिंग होम प्रा० लि० (टीएन/26274)	01-12-00 01-12-03	30-11-03 30-11-06
4	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1878 दिनांक 21.1.04	मै० बॉम्बे अमोनिया(मद्रास)प्रा० लि० (टीएन/3203)	01-03-04	28-02-07
5	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 698 दिनांक 28.08.01	मै० कबराजी गारमैट्स (टीएन/17433)	01-12-03	30-11-06
6	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 2779 दिनांक 23.11.95	मै० आटोमैटिक एण्ड इन्डस्ट्रीयल सीट्स प्रा० लि० (टीएन/11172)	01-04-96 01-04-99 24-06-00 24-06-03	31-03-99 23-06-00 23-06-03 23-06-06
7	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 860 दिनांक 4.09.01	मै० ओमकार फाइन ओरगेनिक्स प्रा० लि० ((टीएन/पीसी/639)	24-06-03	23-06-06
8	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 863 दिनांक 4.09.01	मै० फाइव स्टार बुशैश क्रेडिट लि० तथा 4 शाखाएँ (टीएन/26805)	01-10-03	30-09-06
9	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 909 दिनांक 21.09.01	मै० हटसन एंग्रो प्रोडैक्ट लि० (टीएन/35803)	01-12-03	30-11-06
10	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 554 दिनांक 14.7.04	मै० सुन्दम बेक लिनिंग लि० (टीएन/10771)	01-03-04	28-02-07
11	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 909 दिनांक 21.09.01	मै० मैक रेन्ट फूडस प्रा० लि० तथा 12 शाखाएँ (टीएन/2922)	24-06-03	23-06-06
12	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 399 दिनांक 8.6.04	मै० जी वी एक्सपोर्ट्स (टीएन/36957)	01-03-04	28-02-07
13	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1878 दिनांक 12-01-04	मै० किवी कोनवेयरस टीएन/19263	01-03-04	28-02-07
14	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 दिनांक 12-01-04	मै० एस.आर.पी. टुल्स लि० टीएन/9925	01-06-04	31-05-07

15	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/747 दिनांक 29-08-01	मे0 इंडिया सिमेंट्स कैपिटल एण्ड फाइनेंस लि0 टीएन/19925	24-06-03	23-06-06
16	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/1897 दिनांक 27-01-04	मे0 एपेरल इंडस्ट्रीज टीएन/39261	01-03-04	28-02-07
17	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/554 दिनांक 14-07-04	मे0 लूमिनेयर एप्लेंसेस प्रा0 लि0 टीएन/31462	01-12-03	30-11-06
18	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1878 दिनांक 12-01-04	मे0 हाई पावर आटोमेटिक पार्ट प्रा0 लि0. टीएन/10788	01-03-04	28-02-07
19	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1878 दिनांक 12-01-04	मे0 दि इमको केसीपी लि0 टीएन/7383	01-03-04	28-02-07
20	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 991 दिनांक 07-05-02	मे0 सूजे स्पिनरस टीएन/11968	01-12-04	30-11-07
21	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1025 Dt. 02-08-02	मे0 कोयम्बटूर कम्प्रेसर इंजि0 कं0 लि0 टीएन/33620	01-12-04	30-11-07
22	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1025 दिनांक 02-08-02	मे0 एम टी ए मिल्स प्रा0 लि0 कोयम्बटूर टीएन/28172	01-01-05	31-12-07
23	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 991 दिनांक 07-05-02	मे0 ई आई डी पेरी (आई) लि0 टीएन/577	01-12-03	30-09-04
24	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1897 दिनांक 27-01-04	मे0 करूर कंजयूरस को-ओप होलसेल स्टोरस लि0 टीएन/43490	01-03-03	28-02-06
25	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1878 दिनांक 01-01-04	मे0 तोशनीवाल हाईवेक प्रा0 लि0 टीएन/16239	01-03-04	28-02-07
26	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I दिनांक 12-01-00	मे0 पोपूलर लेदर प्रा0 लि0 टीएन/23686	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-03
27	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/844 दिनांक 30-08-00	मे0 कालीसवारी फायर वर्क्स टीएन/5037-एफ	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
28	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/747 दिनांक 29-08-01	मे0 कालीसवारी फायर वर्क्स टीएन/5128-ए	24-06-03	23-06-06
29	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I/3101 दिनांक 30-11-00	मे0 एलेक्स इंडिया लि0 टीएन/18793	01-12-00 01-12-03	30-11-03 30-11-06
30	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 462 दिनांक 13-05-97	मे0 एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स टीएन/25353	01-05-97 01-05-00	30-04-00 30-04-03

31	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 5162 दिनांक 09-02-01	मे0 देवी फायर वर्क्स टीएन/6409	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
32	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1/2308 दिनांक 26-07-99	मे0 प्रभु स्पिनिंग मिल्स टीएन/41173	01-02-01 01-02-04	31-01-04 31-01-07
33	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 747 दिनांक 29-08-01	मे0 ताज सेरपेंट इंजि0 फैक्ट्री टीएन/20539-बी	24-06-03	23-06-06
34	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 156 दिनांक 20-02-96	मे0 पैरीस कन्फेक्शनरी टीएन/345-बी	24-06-03	23-06-06
35	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 3101 दिनांक 30-11-00	मे0 रंगनाथ मैच इंडस्ट्रीज टीएन/6553-ए	01-12-03	30-11-06
36	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/5162 दिनांक 09-02-01	मे0 कालीसवारी फायर वर्क्स टीएन/5037-बी	24-06-00 24-06-03	23-06-03 24-06-06
37	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /844 दिनांक 30-08-00	मे0 कालीसवारी फायर वर्क्स टीएन/5037-I	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
38	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /844 दिनांक 30-08-00	मे0 कालीसवारी फायर वर्क्स टीएन/5037-डी	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
39	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /991 दिनांक 07-05-02	मे0 देश टू देश कोरियर एण्ड कार्गो सर्विस टीएन/31651	01-12-03	31-11-06
40	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 991 दिनांक 07-05-02	मे0 ओरचिड कैमिकल्स एण्ड फर्मासिटिकल्स लि0 टीएन/31386	24-06-03	23-06-06
41	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /747 दिनांक 29-08-01	मे0 डी एफ सी सर्विसेस प्रा0 लि0 टीएन/19731	24-06-03	23-06-06
42	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 863 दिनांक 04-09-01	मे0 टी.एन. हेण्डलूम वविरस को- ओप सोसायटी लि0 टीएन/2839	24-06-03	23-06-06
43	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /844 दिनांक 30-08-00	मे0 श्री कालीसवारी फायर वर्क्स टीएन/29768	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
44	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1274 दिनांक 18-02-03	मे0 ओरचिड मेडिकल टेक्नोलोजी लि0 टीएन/31198	24-06-03	23-06-06
45	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 2625 दिनांक 03-08-93	मे0 प्राचीनी स्पिनरस प्रा0 लि0 टीएन/सीबीई/10247	01-12-03	30-11-06
46	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 991 दिनांक 07-05-02	मे0 इन्टरनेशनल क्लिनिंग एण्ड शिपिंग एजेंसी टीएन/2741	24-06-03	23-06-06

47	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /747 दिनांक 29-08-01	मै0 निक्को यू सी डी एलायंस क्रेडिट लि0 . टीएन/10263	24-06-03	23-06-06
48	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /991 दिनांक 07-05-02	मै0 ए माधवन एण्ड कं0 टीएन/31402	24-06-03	23-06-06
49	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 909 दिनांक 21-09-01	मै0 सिम्पसन एण्ड ग्रुप कं0 इंजिनियर्स को-ओप सोसायटी लि0 टीएन/5740	01-12-03	30-11-06
50	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /2635 दिनांक 03-08-93	मै0 इंटरफिट इंडिया लि0 . टीएन/16642	01-01-91 01-01-94 01-01-97 01-01-00	31-12-93 31-12-96 31-12-99 31-12-02
51	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /877 दिनांक 15-05-99	मै0 ई आई डी पेरी (आई)लि0 टीएन/345-एफ	01-03-00 01-03-03	28-02-03 28-02-06
52	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /37347 दिनांक 18-03-99	मै0 टी वी एस इंटरकनेक्टेड सिस्टमस लि0 टीएन/24264	01-03-00 01-03-03	28-02-03 28-02-06
53	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /4466 दिनांक 03-03-98	मै0 शक्ति सॉफ्ट ड्रिक्स लि0 टीएन/21889	01-09-99	31-03-03
54	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 3191 दिनांक 30-1-02	मै0 दि नेशनल को-ओप शूगर मिल्स लि0 . टीएन/5982	01-12-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
55	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /991 दिनांक 07-05-02	मै0 जय मोटर लि0 . टीएन/11920	01-12-03	30-11-06
56	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 747 दिनांक 28-08-01	मै0 ताज फायर वर्क्स इन्डस्ट्रीज टीएन/20539-ए	24-06-03	23-06-06
57	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 5162 दिनांक 09-02-01	मै0 मिनरवा फायर वर्क्स इन्डस्ट्रीज टीएन/6431	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
58	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 991 दिनांक 07-05-02	मै0 अशोका लेलेण्ड लि0 टीएन/11727	24-06-03	23-06-06
59	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /747 दिनांक 29-08-01	मै0 श्री कालीसवारी फायर वर्क्स टीएन/9582	24-06-03	23-06-06
60	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /5162 दिनांक 09-02-01	मै0 अरूयान फायर वर्क्स फैक्ट्री प्रा0 लि0 टीएन/6433-एफ	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
61	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 2714 दिनांक 10-08-99	मै0 फलेटरस ट्रेडर्स टीएन/8274	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06

62	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /5162 दिनांक 09-02-01	मे0 श्री कालीसवारी फायर वर्क्स टीएन/5037-ए	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
63	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /747 दिनांक 29-08-01	मे0 हाइड्रो एस एफ एस इन्डस्ट्रीज टीएन/पीसी/644	24-06-03	23-06-06
64	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 698 दिनांक. 28-08-01	मे0 अब्बान इंजिनियर्स लि0 टीएन/30483-ए	24-06-03	23-06-06
65	22/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /877 दिनांक 15-05-99	मे0 चन्द्रा टैंक्सटाई लि0 टीएन/सीबीई/932	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
66	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /933 दिनांक. 19-05-99	मे0 निडल इन्डस्ट्रीज (आई) प्रा0 लि0 टीएन/सीबीई/854	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
67	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 991 दिनांक 07-05-02	मे0 यूनिवर्सल पेट सिस्टम टीएन/16833-ए	24-06-03	23-06-06
68	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /933 दिनांक 19-05-99	मे0 एलगी इक्वुपमेंट्स टीएन/सीबीई/35125	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
69	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /5383 दिनांक 23-02-01	मे0 जारिएन कृषण स्पिनरस लि0 टीएन/सीबीई/8842	04-06-03	31-05-06
70	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 5162 दिनांक 09-02-01	मे0 कोयम्बटूर सिक्कुरीटी प्रा0 लि0 टीएन/सीबीई/21615	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
71	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /281 दिनांक 07-04-99	मे0 ग्राहम फायर वर्क्स इन्डस्ट्रीज टीएन/5594	24-06-03	23-06-06
72	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /5360 दिनांक 13-01-01	मे0 मिलगरलेन एप्लीकेटरस प्रा0 लि0 टीएन/19917	01-09-03	31-08-06
73	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /909 दिनांक 21-09-01	मे0 मेग्नेटिक मेट्रो सिस्टमस (आई) लि0 टीएन/पीसी/815	24-06-03	23-06-06
74	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /2104 दिनांक. 07-05-93	मे0 मिलपोनाथूर मिल्स प्रोड्यूसर्स को-ओप सोसायटी लि0 टीएन/17529	01-01-95 01-01-98 01-01-01	31-12-97 31-12-00 31-12-03
75	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /4392 दिनांक 22-09-99	मे0 करेबस इंजि0 प्रा0 लि0 टीएन/10868	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
76	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /866 दिनांक 4901	मे0 फोर लिक्स (आई) प्रा0 लि0 टीएन/पीसी/532	24-06-03	23-06-06
77	2/1959/ईडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1025 दिनांक. 02-08-02	मे0 रेन ब्रेक्स लिक्स लि0 टीएन/पीसी/790	24-06-03	23-06-06

78	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /1025 दिनांक 02-08-02	मे0 चारुयार एम पी सी एस टीएन/9049	01-08-00	31-07-03
79	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /5300 दिनांक 19-02-01	मे0 कंप फलोर मिल्स टीएन/20624	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
80	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 866 दिनांक 04-09-01	मे0 यूकल फयूल सिस्टम लि0 टीएन/पीसी/692	24-06-03	23-06-06
81	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /857 दिनांक 04-09-01	मे0 इंडियन पोटाश लि0 टीएन/2840	01-12-03	30-11-06
82	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /1648 दिनांक 21-06-99	मे0 दि साउथरन टेक्सटाइल लि0 टीएन/सीबीई/937	27-12-00 27-12-03	26-12-03 26-12-06
83	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /1648 दिनांक 18-03-99	मे0 बह्विया ब्रोदरस एण्ड कं0 टीएन/8464	01-01-00	31-04-02
84	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /1897 दिनांक 27-01-04	मे0 साउथरन आटो कास्टिंग प्रा0 लि0 टीएन/23477	01-12-03	30-11-06
85	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /747 दिनांक 29-08-01	मे0 श्री कालीसवारी रोडवेस प्रा0 लि0 टीएन/41567	24-06-03	23-06-06
86	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /1878 दिनांक 12-01-04	मे0 टी आई मेटल फॉर्मिंग टीएन/16743	01-03-04	28-02-07
87	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /1878 दिनांक 12-01-04	मे0 मैच ईजि0 कं0 टीएन/17610	29-02-04	28-02-07
88	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /1897 दिनांक 27-01-04	मे0 मद्रास मेडिकल मिशन टीएन/23779	01-05-04	30-04-07
89	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /844 दिनांक 30-08-00	मे0 श्री कालीसवारी फायर वर्क्स टीएन/5025-ए	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
90	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 1274 दिनांक 18-02-03	मे0 लक्ष्मी गशीन वर्क्स लि0 टीएन/सीबीई/5320-A	01-03-05	29-02-08
91	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 1274 दिनांक 18-02-03	मे0 शान्ति गेयर लि0 टीएन/8537-C	01-03-05	29-02-08
92	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /52 दिनांक 03-04-02	मे0 विद्या मंदिर हायर सै0 स्कूल टीएन/22661	01-08-02	31-07-05
93	2/1959/इंडीएलआई/एक्सएम/89/पार्ट-1 /1860 दिनांक	मे0 हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स लि0 टीएन/16356	24-06-03	31-10-03

94	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1897 दिनांक 27-01-04	मे0 इंटरफिट टेको प्रोडक्टस टीएन/33959	01-02-05	31-01-08
95	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1878 दिनांक 18-02-03	मे0 जयलक्ष्मी मशीन वर्क्स टीएन/21425	01-03-05	29-02-08
96	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I /1274 दिनांक 18-02-03	मे0 संगीथ टेक्सटाइल्स लि0 टीएन/21343	01-02-05	31-01-08
97	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1025 दिनांक 02-08-02	मे0 बेस्ट एण्ड कं0 टीएन/33746	01-02-05	31-01-08
98	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I /1274 दिनांक 18-02-03	मे0 कृष्णस्वामी नगर गंगानगर मैट्रीकुलेशन स्कूल टीएन/सीबीई/21570	01-03-05	28-02-08
99	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1818 दिनांक 12-01-04	मे0 एन एल सी इम्प्लोइस को-ओप श्रीफट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि0 टीएन/टीआर/8170	01-01-04	31-12-06
100	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I /2761 दिनांक 10-08-99	मे0 बथेसादा हॉस्पिटल टीएन/10759	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07
101	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1878 दिनांक 12-01-04	मे0 इनडेड इंजिनियरस प्रा0 लि0 (P) Ltd. टीएन/26117	01-03-04	28-02-07
102	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1878 दिनांक 12-01-04	मे0 रोटोरस कन्ट्रोलस (आई) प्रा0 लि0 टीएन/	29-02-04	28-02-07
103	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 554 दिनांक 14-07-04	मे0 बेयर टी पी यू प्रा0 लि0 . टीएन/27530	01-11-03	31-10-06
104	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 36464 Dt. 25-09-01	मे0 श्री अरूयानार स्पिनिंग एण्ड विबिंग मिल्स लि0 टीएन/5058	11-04-01 11-04-04	10-04-04 10-04-07
105	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I /1274 दिनांक 18-02-03	मे0 कोम्यबटायर मूरुगन मिल्स टीएन/सीबीई/58	01-12-04	30-11-07
106	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1274 दिनांक 18-02-03	मे0 शान्धी गिरस लि0 . टीएन/853/7बी	01-03-05	28-02-08
107	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I /1274 दिनांक 18-02-03	मे0 विजय साइनटेक्स प्रा0 लि0 टीएन/21341	01-03-05	28-02-07
108	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट- I 1274 दिनांक 18-02-03	मे0 एस आर एस आई मैट्री-हायर से0 स्कूल टीएन/21549	01-03-05	29-02-08

109	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 /1878 दिनांक 12-01-04	मे0 लूकास टी वी एस लि0 टीएन/4045	01-03-04	28-02-07
110	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1878 दिनांक 12-01-04	मे0 बेंटस एण्ड क्रोमपटन इंजि0 लि0 टीएन/849	01-05-04	30-04-07
111	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1897 दिनांक 27-01-04	मे0 एग्जिम नितस प्रा0 लि0 . टीएन/45697	01-02-05	31-01-08
112	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1878 दिनांक 12-01-04	मे0 ऊषा फायर सेफटी इक्वूपमेंटस टीएन/	01-09-03	31-08-06
113	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1274 दिनांक 18-02-03	मे0 लक्ष्मी प्रेशन टूल्स लि0 टीएन/6085	01-03-05	29-02-08
114	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1274 दिनांक 18-02-03	मे0 लक्ष्मी रिंग ट्रेवलरस टीएन/28919	01-12-04	30-11-07
115	2/1959/इंडीएलआई/एक्सेम/89/पार्ट-1 1025 दिनांक 02-08-02	मे0 वेंकटा लक्ष्मी स्पिनरस प्रा0 लि0 टीएन/17837	01-12-04	30-11-07

अनुसूची-1

क्र.सं.	स्थापना का नाम	कोड सं०	छूट का अवधि	
			से	तक
1	मोथप्रस काटन प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, मदुरै	टीएन/41505	29-09-03	28-09-06
2	मै० गेनासके आर रोयन्द्रन शिलागावाशा मैट्रिकलेशन हायर से० स्कूल	टीएन/20608	01-08-04	31-07-07
3	मै० श्री मगन्दा क्रमिकल्स प्रा० लि० मदुरै	टीएन/37205	01-08-04	31-07-07
4	मै० फाल इन्डस्ट्रीज लि० होसूर	टीएन/16598	01-09-04	31-08-07
5	मै० एग्रिम आटोमैक प्रा० लि० होसूर	टीएन/47329	01-07-04	30-06-07
6	मै० तानरा टूल्स (आई) लि० होसूर	टीएन/35434	01-09-04	31-08-07
7	मै० सुब्रह्मन्या शिवा को-ओप शुगर मिल्स धर्मापुरी	टीएन/34664	01-04-03	31-03-06
8	मै० कावेसा इलेक्ट्रोनिक्स (आई) प्रा० लि० सेलम	टीएन/35452	01-05-00 01-05-02	30-04-02 30-04-05
9	मै० एस क कारस (आई) प्रा० लि० सलम	टीएन/35198	01-11-98 01-11-01 01-11-04	31-10-01 31-10-04 31-10-07
10	मै० गेन्टेलस फर्मास्यूटिकल्स लि०	टीएन/40549	01-11-00	31-10-03
11	मै० अशोक टूल्स	टीएन/4616	01-07-95 01-07-98 01-07-01	30-06-98 30-06-01 30-06-04
12	मै० काला नट इन्डस्ट्रीज	टीएन/33657	01-12-03	30-11-06
13	मै० एम्पार क्लब	टीएन/45045	01-07-03	30-06-04
14	मै० एम्पार टोलाइन	टीएन/28867	01-07-03	30-06-04
15	मै० जी बी जी पेपर मिल्स लि०, यूनिट-2	टीएन/20954ए	01-07-04	30-06-07
16	मै० सेंटानन	टीएन/17696	01-09-04	31-08-07
17	मै० सत्यंकार बिजनेस कोप लि०	टीएन/56632	01-10-04	30-09-07
18	मै० नाइप्रो फोल्स प्रोडक्ट्स प्रा० लि० होसूर	टीएन/47337	01-08-03	31-07-06
19	मै० पुष्पना प्लास्टिक मिल्स	टीएन/42762	01-01-03	31-12-05
20	मै० जी बी जी पेपर मिल्स लि०, यूनिट-3	टीएन/20954बी	01-07-04	30-06-07
21	मै० सुनंदा रॉबिन्सन ट्रेस्ट	टीएन/45872	01-08-04	31-07-07
22	मै० विजय रिसर्च फाउंडेशन	टीएन/19938	01-10-04	30-09-07
23	मै० जया पेपर्स मिल्स प्रा० लि०	टीएन/42145	01-03-03	28-02-06
24	मै० शिव्या स्कूल होसूर	टीएन/एसएल/28030	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07
25	मै० विजय पी पी पी रिविन्स मिल्स लि०	टीएन/965	01-01-02 01-01-05	31-12-04 31-12-07
26	मै० सत्यंकार इलेक्ट्रोनिक्स लि०	टीएन/33739	01-05-04	30-04-07
27	मै० सुवाद्यालय्यर सिमाना मिल्स प्रा० लि०	टीएन/एसएल/21223	01-09-04	31-08-07
28	M/s. Bharat Packaging, Hosur मै० भारत पैकेजिंग, होसूर	टीएन/एसएल/34712	01-09-99 01-10-02	30-09-02 30-09-05
29	M/s. Amocha Telecom (P) Ltd. मै० अमोबा टेलकम (प्रा.) लि.	टीएन/45710	01-06-04	31-05-07

30	मे० इला जनरल प्रा० लि०	टीएन/49263	01-03-04	28-02-07
31	मे० प्रोकोम कंट्रोलस	टीएन/56744	01-09-04	31-08-07
32	मे० फूर्मोक्ला (आई) प्रा० लि०	टीएन/45017	01-07-04	30-06-07
33	मे० पी एस जी आर कृष्णामल कॉलेज फॉर वूमन	टीएन/सीबीई/45259	01-01-04	31-12-06
34	मे० माल इन्वोडयरी	टीएन/सीबीई/56419	01-01-03	30-09-06
35	मे० कोयम्बटूर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स	टीएन/सीबीई/54	01-01-04	31-12-06
36	मे० सूरपास	टीएन/45262	01-08-04	31-07-07
37	मे० सालजर एक्सपोर्ट लि०	टीएन/21973	01-05-04	30-04-07
38	मे० सालजर एक्सपोर्ट लि०	टीएन/21973	01-05-04	30-04-07
39	मे० साइनर्जी लॉग एन सिस्टम लि०	टीएन/49385	01-05-04	30-04-07
40	श्री भद्रा पार्कस एण्ड रिसोर्ट्स लि०	टीएन/55103	01-12-03	30-11-06
41	मे० नेटवर्क क्लोथिंग कं० प्रा० लि०	टीएन/47722	01-09-04	31-08-07
42	मे० जे आर पेकेज प्रा० लि०	टीएन/एसएल/34558	01-10-04	30-09-07
43	मे० विरूडधनगर सर्वोदय संघ	टीएन/29014	01-01-03	31-12-05
44	मे० गोलडन गेट्स एमएटीआर हायर से० स्कूल	टीएन/एसएल/25392	01-01-05	31-12-07
45	मे० सेलम श्री रामाविलास चिट कं० प्रा० लि०	टीएन/एसएल/21725	01-02-02	31-01-05
			01-02-05	31-01-08
46	मे० स्कोप नॉल्लेज सेंटर प्रा० लि०	टीएन/30308	01-06-04	31-05-07
47	मे० एस पी स्पिनिंग मिल्स प्रा० लि०	टीएन/17741	01-03-02	28-02-05
			01-03-05	29-02-08
48	मे० युनाइटेड प्रेनीटेस प्रा० लि०	टीएन/एसएल/25361	01-06-95	31-05-98
			01-06-98	31-05-01
			01-06-01	31-05-04
			01-06-04	31-05-07
49	मे० सेंट हॉनस एमटीआर हायर से० स्कूल	टीएन/28078	01-08-99	31-07-02
			01-08-02	31-07-05
50	मे० मिस्सल इस्पात लि०	टीएन/पीसी/429	01-03-04	28-02-07
51	मे० एल्मिनियम पाडर कं० लि०	टीएन/20907	01-08-02	31-07-05
52	मे० बेथल हाई स्कूल	टीएन/एसएल/35004	01-11-02	30-10-05
53	मे० इण्डू कैमिकल्स मेन्यूफैक्चरिंग कं०	टीएन/65200	01-03-04	28-02-07
54	मे० बेथल हॉस्पिटल	टीएन/एसएल/35005	01-11-02	31-10-04
55	मे० माउंटेन स्पिनिंग मिल्स लि० टूटीकोरिन	टीएन/29861	01-03-97	28-02-00
			01-03-00	23-06-00
			24-06-00	23-06-03
56	मे० जयलक्ष्मी ओटो प्रोडक्ट्स होसूर	टीएन/47399	01-02-02	31-01-05
57	मे० पेनगून गोरमेट्स प्रा० लि० मदुरै	टीएन/41855	01-12-03	30-11-06
58	मे० निरंजना विविंग, मदुरै	टीएन/37482	01-04-04	31-03-07
59	मे० फास्ट इन फैशन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि० चैन्नै	टीएन/65334	01-06-04	31-05-07
60	मे० बिनब्रोस एण्ड कं० (एचओ) पांडिचेरी पेक्ट्री के साथ	टीएन/पीसी/35	01-10-03	30-09-06
61	मे० बेवरली होटल्स प्रा० लि०	टीएन/49583	01-05-04	30-04-07
62	मे० टाइटन पेंट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	टीएन/3370	01-06-04	31-05-07
63	मे० युनाइटेड मोटर्स प्रा० लि०	टीएन/9692	01-02-02	31-01-05
			01-02-05	31-01-08

अनुसूची - 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संस्थापन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो वह किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जात है और पॉलिसी को व्यस्त हो दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सूरज शर्मा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

स. 2/1959/डी.एल.आई./एकजम/89/भाग-II--

सा.का ----- जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु ----- ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

अनुसूची - 1

क्र.सं.	स्थापना का नाम	कोड.सं०	छूट की तिथि	
			दिनांक	तक
1.	मे० ऊर्ध्वधरा एन्टरप्राइजेस	एपी/38050	1.8.03	31.7.06
2	मे० रिनेन्सी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	एपी/36665	1.1.02	31.12.04
3	मे० रिनेन्सी जूनियर कॉलेज	एपी/31762	1.3.04	28.2.07
4	मे० रेगमा पैकेजिंग प्रा० लि०	एपी/32006	1.1.02	31.12.04
5	मे० पी.के. एल. लि०	एपी/19661	1.6.02	31.5.05
6	मे० आयुष्मान आयुर्वेदिक ट्रस्ट	टीएन/45945	1.1.05	31.12.07
7	मे० अलंका सुपर मार्केट प्रा० लि०	टीएन/25526	1.12.04	30.11.07
8	मे० तेजास आयुर्वेदिक ट्रस्ट	टीएन/56550	1.1.05	31.12.07
9	मे० सरस्वती मेच वर्क्स	टीएन/20294	1.2.04	31.1.04
10	मे० एलकायी स्पिनरस प्रा० लि०	टीएन/41213	1.3.01	28.2.04
			1.3.04	28.02.07
11	मे० बीडैक्स इंडिया प्रा० लि०	टीएन/50562	1.2.05	31.1.08
12	मे० विन्मया विद्यालया पीएसी रामासागर राजा मैट हॉयर सेकण्डरी स्कूल	टीएन/14492	1.12.02	30.11.05
13	मे० मीनटेज मैन्यूफैक्चरर्स	एपी/6140	1.3.04	28.2.07
14	मे० एम.जी.बी. मोटर एण्ड ऑटो एजेंसीस प्रा० लि०	एपी/41720	1.7.03	30.6.06
15	मे० आशियान हरबैक्स लि०	एपी/34909	1.11.99	31.10.02
			1.11.02	31.10.05
16	मे० एनल ड्रग्स प्रा० लि०	एपी/38224	1.7.04	30.6.07
17	मे० एपी एन्टरप्राइजेस	केआर/14591-ए	1.1.05	31.12.07
18	मे० के.वी.आर. ऑटोमोबाइल्स	केआर/17553	1.10.04	30.09.07
19	मे० घॉयस ट्रेडिंग कोरप. प्रा० लि०	केआर/केसी/10312	1.8.04	31.7.07

अनुसूची - 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक भास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त ।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं ।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।
9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है ।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जात है और पॉलिसी को व्यंगत हो दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है ।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्दातो/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सूरज शर्मा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एकजम/89/भाग-II--

सा.का ----- जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ----- तमिलनाडु ----- ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

क्र. सं.	पूर्व अधिसूचना सं० एवं तिथि	स्थापना का नाम	कोड नं०	छूट की अवधि
1	2/1959/एकजम/89/पा टं०/ दिनांक 7.4.99	यूनिवर्सल ब्रेक्स प्रा० लि०	टीएन/11448	1.12.03 से 29.2.04
2	दिनांक 12.1.00	कर्पगम इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	टीएन/21260	1.12.04 से 30.11.07
3	दिनांक 10.8.99	शिवा डिस्टिलरिज लि०	टीएन/21049	1.11.04 से 31.10.07
4	दिनांक 30.12.02	एम. थांगावेलो हावूकल	टीएन/626	1.1.03 से 31.12.05
5	उपरोक्त	टी जयारमन	टीएन/626ए	उपरोक्त
6	उपरोक्त	टी रघुराम हावूकल एस्टेट	टीएन/626बी	उपरोक्त
7	उपरोक्त	टी जयारमन हावूकल एस्टेट	टीएन/626सी	उपरोक्त
8	उपरोक्त	टी हावूकल एस्टेट	टीएन/626डी	उपरोक्त
9	उपरोक्त	एम रंगासामी हावूकल एस्टेट	टीएन/626 ई	उपरोक्त

10	उपरोक्त	आर. आनंद कुमार हावुकल एस्टेट	टीएन/626 एफ	उपरोक्त
11	उपरोक्त	आर. मीनाक्षी हावुकल एस्टेट	टीएन/626 जी	उपरोक्त
12	उपरोक्त	ए. हरिगोविन्द (माइनर) हावुकल एस्टेट	टीएन/626 एच	उपरोक्त
13	उपरोक्त	आर. नंदकुमार हावुकल एस्टेट	टीएन/626 आई	उपरोक्त
14	उपरोक्त	आर. विजयकुमार हावुकल एस्टेट	टीएन/626 जे	उपरोक्त
15	उपरोक्त	आर. महेश्वरी हावुकल एस्टेट	टीएन/626 के	उपरोक्त
16	उपरोक्त	हावुकल टी. एण्ड प्रोड्यूस प्रा० लि०	टीएन/626 एल	उपरोक्त

अनुसूची - 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि चारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारोख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जात है और पॉलिसी को व्यगत हो दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्दातो/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथ्य प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सूरज शर्मा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. के.भ.नि.आ.को-आर्ड./12/1/2005/एन.जैड--

सा0 आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र.सं.	कोड सं0	स्थापना का नाम व पता	छूट की प्रभावी तिथि
1.	डब्ल्यूबी/42023	मे0 हसूमेन रिसोर्स/सपोर्ट सर्विसेस कोलकाता	1.10.04 से 1.10.04
2.	डब्ल्यूबी/38428	मे0 कुमार कनर्सन प्रा0 लि0 कोलकाता	1.4.02 से 1.4.02
3	डब्ल्यूबी/43172	मे0 रिश्रा पियूपलस को-ओप क्रेडिट सोसायटी लि0, रिश्रा हुगली	1.1.05 से 1.1.05
4	डब्ल्यूबी/43105	मे0 एल्फा न्यूमेरिक, कुत्रागर, हुगली	1.9.04 से 1.9.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

(पी. सी. पातिर)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्यालय)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2005

संख्या: एन-15/13/8/1/2005-यो.एव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने **01 नवम्बर, 2005** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **मध्य प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-**1954** में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **मध्य प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“जिला-रायसेन तहसील गौहरगँज के पटवारी हलका नं०-4 के अन्तर्गत शामिल ग्राम सराकिया एवं सिमराई के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र ।”

भवदीया,

एस. थॉमस

अपर आयुक्त (यो. एवं वि.)

संख्या: यू.16/53/2002/राजस्थान/चि.2: कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. हरिओम नारायण शर्मा, सी.एम.ओ. श्री गंगानगर, राजस्थान अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए राजकीय चिकित्सा आयुक्त (जयपुर) द्वारा निर्धारित श्री गंगानगर क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

डॉ. कमलेश कालरा

चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2005

संख्या: एन-15/13/13/05/2005-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 नवम्बर, 2005** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

राजस्व ग्राम	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	जिला
(1) गणेशपुर- रहमानपुर	लखनऊ	सदर लखनऊ	लखनऊ
(2) सेमरा (3) तेराखास			
(4) उत्तरधौना (5) शाहपुर			
(6) निजामपुर- मल्लहौर			
(7) सरायसेख (8) मेहौरा			
(9) जुगौर (10) लौलाई			
(11) सिकन्दरपुर (12) सोनापुर			
(13) देवरिया (14) चक मल्हौरी			

(एस. थॉमस)
अपर आयुक्त (यो.एंव वि.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

पेंशनरों के लिए रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड चिकित्सा सेवा योजना-2005

सं.के-14011/58/रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड(26वीं)-2003-04

भाग-क: सामान्य

धारा-I: 1.0 अनुप्रयोज्यता/सामान्य उपबन्ध/प्रारंभ:-

- 1.1 इस योजना को “पेंशनरों के लिए रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड चिकित्सा सेवा योजना-2005” के नाम से पुकारा जाएगा ।
- 1.2 इस योजना में अन्तर्विष्ट उपबन्ध बोर्ड के ग्रुप क, ख, ग और घ के पेंशनरों और उनके आश्रितों पर लागू होंगे ।
- 1.3 यह योजना 9.7.2005 को लागू हो गई है ।

धारा-II: 2.0 सदस्यता - स्वयं और परिवार की पात्रता:-

- 2.1 इस योजना के लाभ बोर्ड के पेंशनरों, उनके आश्रितों सहित उनके परिवारों पर लागू होंगे ।
- 2.2 इस योजना के प्रयोजन के लिए, परिवार और आश्रितों की परिभाषा वही मानी जाएगी जो समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सेवा) नियम, 1944 में दी गई है ।

धारा-III: 3.0 उपबन्ध:-

- 3.1 पेंशनरों को योजना में शामिल होने के लिए लिखित रूप में अनुरोध करना होगा ।
- 3.2 पेंशनरों और उनके आश्रितों को उनसे प्राप्त लिखित अनुरोध पर बोर्ड द्वारा उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिसे उपचार करवाते समय योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तुत करना होगा (पहचान पत्र का पाठ संलग्न है) ।
- 3.3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से बाहर रहने वाले पेंशनर अपना/अपने परिवार का उपचार, चिकित्सा अधिकारी, जिसकी अर्हता कम से कम एम.बी.बी.एस. हो, से करवा सकते हैं और उपचार की लागत की अधिकतम सीमा के अन्दर की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

धारा-IV: 4.0 वित्तीय सीमा:-

- 4.1 पेंशनरों के लिए बहिरंग उपचार की वार्षिक सीमा इस प्रकार है:-

<u>वर्ग</u>	<u>पेंशनर/परिवार पेंशनर</u>
श्रेणी 'क'	4300/-
श्रेणी 'ख'	2900/-
श्रेणी 'ग'	2100/-
श्रेणी 'घ'	1760/-

*(सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से उपर्युक्त दरें समय-समय पर संशोधित की जा सकती हैं)

धारा-V: 5.0 विशेष बीमारियों के लिए बहिरंग रोगी विभाग उपचार:-

- 5.1 बहिरंग रोगी विभाग उपचार के लिए उपर्युक्त वित्तीय सीमा के अतिरिक्त, उपर्युक्त पैरा 4.1 में यथा उल्लिखित समग्र वित्तीय सीमा को बगैर लेखे में लिए निम्नलिखित विशेष रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा लागत की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी । तथापि, ऐसे रोगों के लिए उपचार उन्हीं हस्पतालों से करवाया जाना चाहिए जैसा कि केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सेवा) नियम, 1944 में उल्लिखित किया गया है । वे इस प्रकार हैं:-

- कैंसर (Cancer)
- मधुमेह (Diabetes)
- मानसिक रोग (Mental Diseases)
- कुष्ठ रोग (Leprosy)

- पोलियो, प्रमस्तिष्कीय पक्षापात और स्पैस्टिक (Poliomyelitis, Cerebral Palsy and Spastics)
- तपेदिक रोग (Tubercular Diseases)
- थालासेमिया मेजर (Thalasaemia Major)

धारा-VI: 6.0 पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधाएं:-

- 6.1 अंतरंग उपचार के लिए, पेंशनर उन्हीं सुविधाओं के पात्र होंगे जो बोर्ड के कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध हैं ।
- 6.2 योजना के अधीन निम्नलिखित रोगों के लिए आपरेशन के पश्चात् बहिरंग रोगी विभाग उपचार के संबंध में दवाई की लागत की प्रतिपूर्ति भी उसी प्रकार होगी जैसी की केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सेवाएं) नियम, 1944 की शर्तों को ध्यान में रख कर की जाती हैं:-
- हृदय सर्जरी/हृदय रोग (Cardiac Surgery/Cardiology)
 - ओनकोलाजी (Oncology)
 - अंग प्रतिरोपन (Organ Transplant)
 - जोड़ प्रतिरोपन (Joint Replacement)
 - मुख्य न्योरो-सर्जिकल/न्योरोलोजी मामले (Major Neuro-Surgical/Neurology cases)

धारा-VII: 7.0 शक्तियों का प्रत्यायोजन:-

- 7.1 इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को है ।
- 7.2 इस योजना के तहत यदि कोई मामला उल्लिखित नहीं किया गया है तो, उन मामलों में केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सेवा) नियम, 1944 के उपबन्ध और उनके अधीन उल्लिखित निर्णय/अनुदेश, बोर्ड के सभी पेंशनरों पर लागू होंगे ।

(पी.के. मिश्र)
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा पहचान पत्र


पूरा नाम.....

पिता/पति का नाम.....

निवास का पता.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर.....

जारी करने की तारीख.....



जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

चिकित्सा लाभ के प्रयोजन के लिए आश्रितों का विवरण

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख	संबंध	12 वर्ष से अधिक की आयु वाले परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

सं. 1-2005/जी.आर

केन्द्र सरकार, नई दिल्ली के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्रांक एफ. 2-17/2002-यू-11 दिनांक 3.8.2005 के द्वारा निम्नलिखित विनियम (रेगूलेशन) को मान्यता प्रदान कर दी है:

पंजाब विश्वविद्यालय, की विनियमावली, खंड-1, 2005 के पृष्ठ 112 पर दिए गए अध्याय 5 (ए) के विनियम 7, जिसका संबंध 'विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवागत शर्तों' से है, को विश्वविद्यालय के निकायों (बाडीज़)/भारत सरकार/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में प्रभावी समझा जाए

7. विनियम 5 तथा 8 के प्रावधान का अनुल्लंघन न करते हुए, जब कभी किसी प्राध्यापक (लेक्चरर) की नियुक्ति करनी हो, तो चयन-समिति का गठन निम्नलिखित रूप में होगा:

- i. कुलपति अध्यक्ष के रूप में
- ii. कुलपति के द्वारा आशंसित तथा सिंडीकेट के द्वारा अनुमोदित विषय-विशेषज्ञों की तालिका में से संबद्ध विषय के तीन विषय विशेषज्ञ
- iii. कुलपति के द्वारा नामित एक शिक्षाविद्
- iv. संबद्ध संकाय का अधिष्ठाता (डीन)
- v. संबद्ध विभाग का अध्यक्ष, जो पदेन कम से कम प्रोफेसर हो, चयन-समिति में भाग लेगा। यदि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर न हो, तो

वरिष्ठतम प्रोफेसर चयन-समिति का सदस्य होगा। विभाग में यदि कोई भी प्रोफेसर हो ही नहीं, तो शैक्षणिक अधिष्ठाता (डी.यू.आई.) चयन-समिति का सदस्य होगा।

यदि कभी भी अनुरूचित जाति/जन जाति/स्त्री/शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के लिए होने वाले साक्षात्कार में इन वर्गों का कोई भी प्रत्याक्षी उपस्थित हो रहा हो, तो इन वर्गों का कोई प्रतिनिधि भी चयन-समिति का सदस्य होगा।

चंडीगढ़-160014

दिनांक : 25.11.2005

(एच. सी. मलहोत्रा)

संयुक्त कुलसचिव

मेरी उपस्थिति में पंजाब विश्वविद्यालय की मोहर लगा कर इसे मोहरबंद कर दिया गया। 25.11.2005

(एस. एस. बारी)

कुलसचिव

दि कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया
12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता-700016

....

कोलकाता, दिनांक 26 फरवरी, 2002

11-सीडब्ल्यू आर (263-272)/2002 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं :-

1. श्री पी.के. वर्मा, बी कॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, ईई-255, सर्कुलर रोड, पंज पीर, बाग कर्म बक्श, जालंधर 144001, (सदस्यता सं० 13570), 11 जनवरी, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
2. श्री आर.के. मित्तल, एम कॉम, एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, 50, 3-ए, जय नारायण लेन, दीप होटल के सामने, हुसैन गंज, लखनऊ-226001, (सदस्यता सं० 17701), 18 जून, 2001 से 30 जून, 2002 तक ।
3. श्री सुदिप घोष, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 12/7, कुचिल सरकार लेन, हावडा-711101, (सदस्यता सं० 19654), 6 नवम्बर, 2001 से 30 जून, 2002 तक ।
4. श्री जी. पदमानाभन, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, प्लैट नं० 2, अक्षय, 19, तीसरा मेन रोड, नंगनालूर, चेन्नई-600061, (सदस्यता सं० 1203) 26 दिसम्बर, 2001 से 30 जून, 2002 तक ।
5. श्री बी.एस. तारी, एमकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 4, मयूरपंख सीएचएस, दातापाडा, बोरीवली(ई0), मुम्बई-400066, (सदस्यता सं० 1976), 3 जनवरी, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
6. श्री इन्दु शर्मा, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 8, राग नगर, दिल्ली-110051, (सदस्यता सं० 16289), 27 अगस्त, 2001 से 30 जून, 2002 तक ।
7. श्री के.ई. सुब्रमणियन, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 18/740, 'श्री निलायम' समूहम रोड, टाली, कालीकट-673002, (सदस्यता सं० 19699), 2 नवम्बर, 2001 से 30 जून, 2002 तक ।
8. श्री शेखर भट्टाचार्य, बीकॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 17, ललित गुप्ता स्ट्रीट, निमाता, कोलकाता-700049, (सदस्यता सं० 19382), 22 फरवरी, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
9. श्री गिरीश एम. नाडकरनी, बीकॉम(ऑनर्स), एमएफएम, एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए, ए5-1, सौदाभिनी कॉम्प्लेक्स, भूषण कालोनी, पाउड रोड, पुणे-411038, (सदस्यता सं० 10060), 20 अक्टूबर, 2001 से 30 जून, 2002 तक ।
10. श्री एस.के. पचिसिया, बीए, एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, सीताराम भवन, चौथी मंजिल, 369, जगन्नाथ शंकर सेठ मार्ग, चिरा बाजार, मुम्बई-400002, (सदस्यता सं० 3204), 3 फरवरी, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।

(एस.आर. आचार्य)
सलाहकार/सचिव

कोलकाता, दिनांक 24 जून, 2002

11-सीडब्ल्यू आर (273-282/2002) : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं :-

1. श्री डी.टी.रामभिया, बीकॉम, एलएलबी(जी), एआईसीडब्ल्यूए, 74 बी, स्वामी सामर्थ नगर, पैसरी मंजिल, बालाँक सं० 50, मुगभात लेन, गिरगौम रोड, मुंबई-400004, (सदस्यता सं० 8062) 06 फरवरी, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
2. श्री दीपक सेन, बीएससी, एलएलबी, एसीआईएस, एफआईसीडब्ल्यूए, 342, जोधपुर पार्क, कोलकाता 700068 (सदस्यता सं० 6521), 20 मार्च, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
3. श्री ए.पी. राणे, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 29, सफाल्या, कुरे रोड, मुंबई-400013, (सदस्यता सं० 106468), 9 मार्च, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
4. श्री आर.पी. भाटिया, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, 17/42(एफएफ) सुभाष नगर, नई दिल्ली-110027, (सदस्यता सं० 4150), 19 मार्च, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
5. सुश्री अनीता नैय्यर, एमकॉम, एसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, 1376, सेक्टर 8, फरीदाबाद, (सदस्यता सं० 15087), 10 मार्च, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
6. श्री पी.एनू विरडि, बीकॉम, एलएलबी(ऑनर्स) एफआईसीडब्ल्यूए, आरए-49, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली-110012 (सदस्यता सं० 5583), 12 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।

7. श्री अमित कुमार जैन, बीकॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 18/ए-7, सेन्ट्रल मार्केट, अशोक विहार-1, दिल्ली-110052 (सदस्यता सं० 17139) 24 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
8. श्री रंजन कुमार सत्पति, बीएससी(एच), एआईसीडब्ल्यूए, जे-28, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-110065, (सदस्यता सं० 21740), 24 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
9. श्री हेमन्त अग्रवाल, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 2 प्रिंसेप स्ट्रीट, कोलकाता-700072 (सदस्यता सं० 17890), 12 जून, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।
10. सुश्री प्रजाकता एम. धेरे, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 32, विदिशा, चौथी लेन, तुलसीबागवाले कालोनी, सहकार नगर, पुणे-411009, (सदस्यता सं० 21675), 19 जून, 2002 से 30 जून, 2002 तक ।

(वी.वी. देवधर)
अध्यक्ष

कोलकाता, दिनांक 31 मार्च, 2003

11-सीडब्ल्यू आर (283-304)/2003 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं :-

1. श्री रामदुलाल गोस्वामी, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 2/7, नारायण राय रोड, बारिशा, कोलकाता-700008, (सदस्यता सं. 1215), 8 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2002 तक।
2. श्री सुशील मित्रा, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट 1ए, 1/1, डोवर लेन, कोलकाता-700029, (सदस्यता सं. 1328), 26 जून, 2002 से 30 जून, 2002 तक।
3. श्री पी.वी. प्रसाद, एमए(इकॉन), एनआईसीडब्ल्यूए, 8-3-169/90, सिद्धार्थ नगर, हैदराबाद-500038, (सदस्यता सं. 1734), 1 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2002 तक।
4. श्री वसंत पी. बेदाले, एआईसीडब्ल्यूए, के-1, अम्बेडकर नगर, जी.डी.अम्बेडकर रोड, पारेल, मुंबई-400012 (सदस्यता सं. 1959), 7 जून, 2002 से 30 जून, 2002 तक।
5. श्री एम.मुरली, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट बी, बृन्दावन अपार्टमेंट्स, 40, स्कूल रोड, पेरमबूर, चेन्नई-600011, (सदस्यता सं. 8877), 28 जून, 2002 से 30 जून, 2002 तक।
6. सुश्री सुप्रिया राधा कृष्णा, एमकॉम एआईसीडब्ल्यूए, 216, एचएमटी सतवाहना नगर, कुकटमल्ली, हैदराबाद-500072, (सदस्यता सं. 18185), 1 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2002 तक।
7. श्री रजनीश ठुकराल, एमकॉम, एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए, एमआईजी 3399, अर्बन एस्टेट फेस-2, डुगरी रोड, लुधियाना, (सदस्यता सं. 19611), 28 जून, 2002 से 30 जून, 2002 तक।

8. श्री एस.एस. सहस्रबुद्धे, बीकॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 3/52, सुचित्रा, घंटाली सहनिवास, नापाडा, थाणे-400602 (सदस्यता सं. 2479), 5 फरवरी, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
9. श्री पी.नारायण राव, बी.ए., एमकॉम, एलएलबी, एफसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, 47-1-14, यशोदा अपार्ट., 9, डा0 सुन्दरम रोड, दानावपेट, राजमुन्दरी-533103 (सदस्यता सं. 2805), 30 सितम्बर, 2002 से 30 जून, 2003 तक।
10. श्री वी. पूरणचन्द्र राव, एमए, एफआईसीडब्ल्यूए, म.न. 12-13-677/5, प्लॉट नं0 250, गली. नं0 1, किमती कालोनी, टरनाका, हैदराबाद-500017, (सदस्यता सं. 3954), 11 नवम्बर, 2002 से 30 जून, 2003 तक।
11. श्री बी.टी. साउ, एमकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, नफर च. नस्कर रोड, तेनतुलबारिया(वे.), गारिया, कोलकाता-700084, (सदस्यता सं. 5224), 19 दिसम्बर, 2002 से 30 जून, 2003 तक।
12. श्री एम. बालासुब्रमण्यन, बी कॉम, एलएलबी, एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए, 'साई कृष्णा अपार्टमेंट्स', 65, टेम्पल रोड, मल्लेश्वरम, बंगलौर-560003, (सदस्यता सं. 5906), 22 नवम्बर, 2002 से 30 जून, 2003 तक।
13. श्री जी.एस.आर. कृष्णा मूर्ति, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, 50-28-10, टी.पी.टी. कालोनी, सीताम्मधारा, विशाखापट्टनम-530013, (सदस्यता सं. 6472), 4 अक्टूबर, 2002 से 30 जून, 2003 तक।
14. श्री ओ.शानमुगनथम, बीए, एआईसीडब्ल्यूए, 35/34, मोहनापुरी चौथी गली, अदमबक्कम्, चेन्नई-600088 (सदस्यता सं. 7843), 5 फरवरी, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
15. श्री एस. वेंकटेश प्रसाद, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, पुराना नं0 34, नया नं0 16, 27वीं गली, थिल्लई गंगा नगर, चेन्नई-600006 (सदस्यता सं. 20277), 20 जनवरी, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
16. सुश्री रीतु अग्रवाल, बी कॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, शांतिकुंज, हिल व्यू पार्क (न.), आसनसोल-713304, (सदस्यता सं. 20802), 20 अगस्त, 22 से 30 जून, 2003 तक।
17. श्री के.वी. श्रीधर, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, सं0 4(पुराना), 7(नया), 11वा क्रॉस रोड, स्वीनिंग पूल एक्सटेंशन, मल्लेश्वरम, बंगलौर-560003, (सदस्यता सं. 13361), 17 फरवरी, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
18. श्री रवि कुमार चोना, बीकॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, एक्स/3390, गली नं0 2, रघुबरपुरा नं0 2, गांधी नगर, दिल्ली-110031, (सदस्यता सं. 22405), 28 फरवरी, 2003 से 30 जून, 2003 तक।

19. श्री राधा रमण बेनर्जी, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, बी-11/9, गोल्फ ग्रीन, फेस 1, कोलकाता-700095, (सदस्यता सं. 1759), 12 मार्च, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
20. श्री कमल कुमार घोष, बी कॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 257, एस.एन, राय रोड, कोलकाता-700038, (सदस्यता सं. 1774), 12 मार्च, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
21. श्री टी.के. नारायणन, बीएससी, बी कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, ई-45, कामराज रोड, ब्लॉक 18, नेवेली-607803, (सदस्यता सं. 1549), 12 मार्च, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
22. श्री सलील कुमार मित्रा, एआईसीडब्ल्यूए, 700ए/1ए, 'पी' ब्लॉक, न्यू अलीपुर, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता-700053, (सदस्यता सं. 3833), 31 मार्च, 2003 से 30 जून, 2003 तक।

(बी.वी.रामना मूर्ति)
अध्यक्ष

कोलकाता, दिनांक 5 दिसंबर, 2003

11-सीडब्ल्यू आर (305-326)/2003 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं

1. श्री के.बी. पवार, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, ए4/12, मानव कल्याण, बांगर नगर, गोरेगांव(प.), मुंबई-400090 (सदस्यता सं0 4468) 15 नवम्बर, 2003 से 30 जून, 2004 तक ।
2. श्री सी.एस. मूर्ति, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, 2-18-20, माधवनगर, काकिनाडा-533003, (सदस्यता सं0 1873), 1 जून, 2003 से 30 जून, 2004 तक ।
3. श्री ज्योतिर्भोज कार राय, एमए, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, बी89, रावे पार्क, पो.आ. संतोषपुर, कोलकाता-700075, (सदस्यता सं0 241), 28 मार्च, 2003 से 30 जून, 2003 तक ।
4. श्री आसिम कुमार घोष, एमकॉम, एलएलबी, एफआईसीडब्ल्यूए, 27/3, बैष्णबघाटा रोड, फ्लैट 8, कोलकाता-700047, (सदस्यता सं0 1773), 31 मार्च, 2003 से 30 जून, 2003 तक ।
5. श्री के.पी. रविन्द्रन, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं0 3, 'बी' ब्लॉक, पांचवीं मंजिल, जेमिनी पार्सन अपार्टमेंट्स, चेन्नई-600006, (सदस्यता सं0 5365), 23 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक ।
6. श्री एन.एस. चौधरी, बीकॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 52-बी, फ्रैंड्स कालोनी, कातोला रोड, नागपुर-440013, (सदस्यता सं0 3585), 31 मार्च, 2003 से 30 जून, 2003 तक ।
7. श्री के.वी. लोकाय, एमए, एआईसीडब्ल्यूए, 589, डा0 समासामी सलाय, के.के. नगर, चेन्नई-600078, (सदस्यता सं0 7282), 8 मई, 2003 से 30 जून, 2003 तक ।
8. श्री एम.डी. बंगाडे, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं0 बी-56/543, गांधी नगर बांद्रा ईस्ट, मुंबई-400057, (सदस्यता सं0 1760), 1 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक ।
9. श्री सोहन पात्रा, बीकॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 77/एल, जे.एन. लाहिरी रोड, सेरम्पुर-712201, (सदस्यता सं0 19602), 28 मई, 2003 से 30 जून, 2003 तक ।
10. श्री वाई.पी. वाष्णय, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, चौती मार्ग, कोशीपुर, उत्तरांचल, (सदस्यता सं0 4654), 2 मार्च, 2003 से 30 जून, 2003 तक ।
11. श्री एम.डी. भुसारी, एमए(ईकोन), एआईसीडब्ल्यूए, 15/9, जे.पी.एम., श्री. हाउसिंग सोसायटी, एस.आर. रोड, मुंबई(ई.), मुंबई-400081, (सदस्यता सं0 3734), 1 मई, 2003 से 30 जून, 2003 तक ।

12. श्री ए.एस.आर. प्रसाद राव, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं० 310, मानसरोवर हेट्स, साई सागर एंक्लेव, मानो विकास नगर, सिकंदराबाद-500015, (सदस्यता सं० 3768), 16 जून, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
13. श्री चन्द्र कांत बंसल, बीकॉम(ऑनसी), एआईसीडब्ल्यूए, जीएच-8/162, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087, (सदस्यता सं० 22421), 31 मई, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
14. श्री पी.आर. पारेख, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, नितिन निवास, प्लॉट नं० 243, ब्लॉक नं० 9, रोड नं० 3, जवाहर नगर, गोरेगांव (वेस्ट), मुंबई-400062, (सदस्यता सं० 2129), 1 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
15. श्री पी.एस. नाडकर्नी, बीएससी, एफआईसीडब्ल्यूए, ए/31, मांगिरीश प्रिमिजिस, 520, लेडी जमशेदजी रोड, माहिम, मुंबई-400016, (सदस्यता सं० 922) 1 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
16. श्री आर. आगिवाल, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 136, महास्वेता नगर, उज्जैन-456010, (सदस्यता सं० 3866), 1 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
17. श्री जेरी राय मोरिस, एआईसीडब्ल्यूए, 1, बीआउ मॉडे, 15, पिताम्बर लेन, माहिम, मुंबई-400016, (सदस्यता सं० 2428), 1 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
18. श्री के.एल. मदान, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 1-14, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 (सदस्यता सं० 3188), 1 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
19. श्री के.ए. विजय राघवन, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, सं० 7, III स्ट्रीट, तोलकापियर नगर, तंजावूर-613001, (सदस्यता सं० 9100), 17 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
20. श्री के.के. दासगुप्ता, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, पी-68, लेक टाउन, ब्लॉक-बी, कोलकाता-700089, (सदस्यता सं० 2860), 15 अक्टूबर, 2003 से 30 जून, 2004 तक।
21. श्री देवेन्द्रनाथ मुखर्जी, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 'आशीर्वाद', 4/ई, सीतलामाता लेन, पो.आ. नोआपाडा, कोलकाता-700090, (सदस्यता सं० 4106), 1 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक।
22. श्री वी. सुब्रमणियम, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, सी/12, आशियाना, वीनस कालोनी, सैकेंड क्रॉस स्ट्रीट, अलवरपेट, चेन्नई-600018, (सदस्यता सं० 1434), 1 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2003 तक।

(डा० के.एल. जयसिंह)

अध्यक्ष

कोलकाता, दिनांक 19 अक्टूबर, 2001

16-सीडब्ल्यू आर (1305-1324)/2001: कौस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कौस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री सतिन्द्र नाथ रे, बी.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं० बी-15/301, पीयरलेस नगर, सोदेपुर, पो.आ. पनिहाटी - 743176, (सदस्यता सं० 4839), 23 फरवरी, 1999 से ।
2. श्री बल्लभ दास डागा, बी.कॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, ए-116, सेक्टर 31, नोएडा-201303, (सदस्यता सं० 3277), 28 मार्च, 2001 से ।
3. श्री पी.एम.शर्मा, एम.ए., एसीए, एआईसीडब्ल्यूए, 3-29-43, कृष्णा नगर, गुंटूर-522006, (सदस्यता सं० 3780), 23 सितंबर, 1997 से ।
4. श्री जगदीश राय भल्ला, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, ई-190, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048, (सदस्यता सं० 422), 31 अगस्त, 1999 से ।
5. श्री एस.एन. काजा, एमए, एफआईसीडब्ल्यूए, 2, कार्पोरेशन पैलेस, कोलकाता-700013, (सदस्यता सं० 764), 12 फरवरी, 2001 से ।
6. श्री एन. स्वामीनाथन, बी.कॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 41, चक्रपाणि स्ट्रीट, माम्बालम, चेन्नई-600033, (सदस्यता सं० 832), 1 फरवरी, 1999 से ।
7. श्री ईश्वर लाल भाटिया, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, डी-34, दूसरी मंजिल, अजय एन्कलेव, नई दिल्ली-110018 (सदस्यता सं० 3159), 29 मई, 2000 से ।
8. श्री प्रवांगशु कुमार घोष, एसीएमए, एआईसीडब्ल्यूए, 32, मोतीलाल गुप्ता रोड, बारिशा, कोलकाता-700008, (सदस्यता सं० 4292), 6 जुलाई, 2000 से ।
9. श्री आर.एस.कार्निंक, बीए, एम.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, जे/10, बीमानगर को.ओ.हाउसिंग सोसायटी, सर एम.वी. रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400069, (सदस्यता सं० 4928), 2 फरवरी, 2001 से ।
10. श्री एस.के. चटर्जी, एम.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, पूर्व सहायक वित्तीय सलाहकार, दामोदर घाटी कारपोरेशन, 33 एवं 33/1, चेतला सेन्दूल रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027, (सदस्यता सं० 5171), 20 जून, 1990 से ।
11. श्री सी.एस. रामामूर्ति, बीएससी, एसीएमए, एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए, 11, नारायणीयम, 22, टेम्पल ऐवन्यू, श्रीनगर कालोनी, सैदापेट, चेन्नई-600015, (सदस्यता सं० 6747) 10 सितंबर, 2000 से ।

12. श्री एल.वेंकटसुब्रमणियन, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, पूर्व महाप्रबंधक -लेखा प्रबंधन, बुरोह वेलकम(इंडिया) लि0, 16, एनजीएन वैद्य मार्ग, बैंक स्ट्रीट, मुम्बई-400023, (सदस्यता सं0 12409), 31 दिसंबर,1994 से ।
13. श्री के. सत्यनारायण, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 'गंगोत्री', 1 क्रास,II मेन, तुमकुर, विजयनगर-572102(सदस्यता सं0 8443), 16 अगस्त,2000 से ।
14. श्री के.एस. चन्द्रशेखर, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 'प्रशांती निवास', 1579, 7वां मेन रोड, आर.पी.सी, लेआउट, विजयनगर, दूसरी स्टेज, बंगलौर - 560040, (सदस्यता सं0 2215), 22 जुलाई,2001 से ।
15. श्री सी.वी. नटराजन, एआईसीडब्ल्यूए, 235, 10 वां मेन रोड, हनुमंथानगर, बंगलौर-560019, (सदस्यता सं0 442), 27 जुलाई,2001 से ।
16. श्री डी.के. सेठ, एम.कॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 11, प्रीतम अपार्टमेंट, नजदीक भारूति मंदिर, कार्वे रोड, कोथरूड, पुणे-411029, (सदस्यता सं0 10460), 14 जून,2001 से ।
17. श्री चौ0 कामेश्वर राव, बीए,एफआईसीडब्ल्यूए, एचआईजी 23, शीला नगर, विशाखापटनम -530012, (सदस्यता सं0 3826), 11 जुलाई,2001 से ।
18. श्री मदन मोहन रे, बी.कॉम,एफआईसीडब्ल्यूए, सिद्धेश्वरी मार्किट, मामरा बाजार, दुर्गापुर - 713206, (सदस्यता सं0 6874), 28 मई,2001 से ।
19. श्री डी.वाई.ओके, बी.कॉम,एसीए, एआईसीडब्ल्यूए, पूर्व महाप्रबंधक (लेखा), भारतीय रेअर अर्थ्स लिमिटेड, 103, मेकर टॉवर्स 'एफ', 10 वीं मंजिल, कुर्णे पराडे, कोलाबा, मुम्बई-400005, (सदस्यता सं0 4949), 24 मई,2001 से, और
20. श्री सुप्रिया रक्षित, एम.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, पी-3, बेलेघटा रोड, कोलकाता 700015, (सदस्यता सं0 13229), 8 मई,2001 से ।

(एस.आर आचार्य)
सलाहकार/सचिव

कोलकाता, दिनांक 19 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

16-सीडब्ल्यू आर (1325-1330)/2001: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि ईस्टीमेट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री बी. डी. पुरकास्थ, बी कॉम, एल.एल.बी., एआईसीडब्ल्यूए, ए-52, आर.के. नगर बिलासपुर-495006, (सदस्यता सं० 13383) 28 फरवरी, 2001 से।
2. श्री एस.जी. रवि कुमार, बी कॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 1545, 39 वां क्रॉस, 22 वां मेन, जयनगर चौथा 'टी' ब्लॉक बंगलौर-560041, (सदस्यता सं० 5806), 1 अप्रैल, 2001 से।
3. श्री मनोहर लाल, बी कॉम, एस सी ए, एआईसीडब्ल्यूए, ई-477, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048 (सदस्यता सं० 250), 1 अप्रैल, 1992 से।
4. एस.एन. भट्ट, एमएससी, एफआईसीडब्ल्यूए, 1/6, शिवेनेरी, लालू भाई पार्क, रोड नं० 2, अंधेरी (प०), मुंबई-400058, (सदस्यता सं० 678), 18 फरवरी, 2001 से।
5. श्री बी.ओ. शाह, बी कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 10-11, राम निवास, हनुमान रोड, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई-400057, (सदस्यता सं० 1943), 1 अप्रैल, 2001 से, और
6. श्री आर.के. भट्टाचार्य, एम.कॉम, बीटी, एआईसीडब्ल्यूए, रघुनाथपुर, पो० ओ० झारग्राम-721507, जिला मिदनापुर (प० बंगाल), (सदस्यता सं० 4422), 24 मई 2001 से।

(एस.आर.आचार्य)
सलाहकार/सचिव

कोलकाता, दिनांक 26 फरवरी, 2002

अधिसूचना

16-सीडब्ल्यू आर (1331-1337)/2002: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री एन.एस.वेंकटकृष्णन, एमए, एलएलबी, एफआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं० 3, अणुशांति अपार्ट, 12, चौथा क्रॉस स्ट्रीट, सीआईटी कालोनी, चेन्नई - 600004, (सदस्यता सं० 12), 3 अक्टूबर, 2001 से ।
2. श्री के.सी. नंदी, एम.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 11, ड्रीमलैंड अपार्टमेंट्स वादवली सेक्शन, अम्बरनाथ-421501, (सदस्यता सं० 2128), 13 जनवरी, 2002 से ।
3. श्री पी. सुब्रमणियन, एमए, एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, प्लॉट नं० 10, शुगरमिल कालोनी, तिरुनलवेली-627001, (सदस्यता सं० 4574), 28 मई, 2001 से ।
4. श्री बी.सी. भट्टाचार्य, बीएससी, एफआईसीडब्ल्यूए, 7-ए, सनफ़ मिल्स स्टे., बेल्लारिया, कोलकाता-700056, (सदस्यता सं० 1765), 3 जुलाई, 2001 से ।
5. श्री सी.के. शाह, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, जी-10, वृन्दावन एस्टेट, पॉशभाई पटेल पार्क, अभिषेक कालोनी के समने, रेस कोर्स, बडोदरा - 390015, (सदस्यता सं० 5228), 25 जनवरी, 2000 से ।
6. श्री के. गणपति, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 78सी, टाईप-II-क्वार्टर्स, ब्लॉक 7, नेवेली-607803, (सदस्यता सं० 10149), 20 अक्टूबर, 2001 से ।
7. श्री बिमलेन्दु सेन, बीए, एमकॉम, एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, 68/5/1, एम.जी. रोड, ठाकुरपुकुर, कोलकाता-700063, (सदस्यता सं० 2175), 11 सितंबर, 2001 से ।

(एस.आर. आचार्य)
सलाहकार/सचिव

कोलकाता, दिनांक 26 फरवरी, 2002

16-सीडब्ल्यू आर (1338-1339)/2002: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री सी.एस. महादेवन, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, मकान नं० सी/2-146, इन्द्रानगर, जमशेदपुर- 831008, (सदस्यता सं० 1541), 27 दिसम्बर, 2001 से ।
2. श्री एच.एस. शंकरन, बीएससी, एफआईसीडब्ल्यूए, 211, ऐश्वरी निवास, (ऐपेक्स बैंक के पीछे), 1 मेन, डब्ल्यूसीआर II स्टेज, बंगलौर-560086, (सदस्यता सं० 1342), 18 अक्टूबर, 2001 से ।

एस. आर. आचार्य
सलाहकार/सचिव

कोलकाता, दिनांक 24 जून, 2002

16-सीडब्ल्यू आर (1340-1344)/2002: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री टी.सी. सुन्दरम, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, 19ए, अपस्टेयर, पोरूर सोमसुन्दरम स्ट्रीट, नार्थ उसमान रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017, (सदस्यता सं० 157) 25 मार्च, 2002 से ।
2. श्री के.वी. सुब्बा राव, बी कॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 23-22-1, शिवालयम स्ट्रीट, विशाखापट्टनम-530001, (सदस्यता सं० 449), 30 नवम्बर, 2001 से ।
3. डा० मनोहर दत्तात्रेय एपटे, बीएससी, बी कॉम, पीएचडी, एफसीएमए, एफआईसीडब्ल्यूए, 1103/ए-2, आदर्श कालोनी पुणे-411016 (सदस्यता सं० 933), 6 मई, 2002 से ।
4. श्री एस.पी. सोमसुन्दरम, एमकॉम, एमए, बीजीएल, एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए, 1-ए, ममबालातन टैंक ईस्ट बैंक, पी. पुडुपट्टी-622408, डीटी. पुडुक्कोट्टाई (सदस्यता सं० 3239), 25 फरवरी, 2002 से, और
5. श्री माम, चन्द अग्रवाल, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, हाऊस नं० 23, सैक्टर 15, पंचकुला-134113, (सदस्यता सं० 5160), 17 जनवरी 2002 से ।

वी. वी. देवधर
अध्यक्ष

कोलकाता, दिनांक 24 जून, 2002

16-सीडब्ल्यू आर (1345-1350)/2002: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री वी.अय्याह, बीएससी, एसीएमए, एफआईसीडब्ल्यूए, 25/4(पुराना नं० 11/4), अलामेलु अपार्ट., अलामेलुमंगापुरम, मडलापुर, चेन्नई-600004, (सदस्यता सं० 1353), 22 नवम्बर, 2000 से ।
2. श्री एम.के.दधोलकर, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 56, ' हंस ', कंसई सेक्शन, अम्बरनाथ-421501, डीटी, थाणे, महाराष्ट्र, (सदस्यता सं० 1589), 19 मार्च, 2002 से ।
3. श्री एस.आर. राव, बी कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 7/162बी, आदिताल्य, लेडी जहांगीर रोड, दादर ईस्ट, मुम्बई-400014, (सदस्यता सं० 2315), 1 अप्रैल, 2002 से ।
4. श्री एल. हरीसर्वोत्तम, बीए, बी.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 31/486, नोवारोज सीएचएस लि०, सेंट डोमिनिक रोड, बान्द्रा, मुम्बई-400050, (सदस्यता सं० 3925), 1 अप्रैल, 2002 से ।
5. श्री पंकज एल. शाह, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 5ए, मेफेयर ग्रेस, 2158, न्यू मोदीखाना, पुणे-411001, (सदस्यता सं० 6789), 13 अप्रैल, 2002 से, और
6. श्री एस.के. परनामी, एमए(इकाना.), एआईसीडब्ल्यूए, 128/1, सैक्टर 55, चंडीगढ़-160055, (सदस्यता सं० 9209), 12 मार्च, 2002 से ।

वी. वी. देवधर
अध्यक्ष

कोलकाता, दिनांक 31 मार्च, 2003

16-सीडब्ल्यू आर (1351-1373)/2003: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने के कारण सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री यू.आर. पदमानाभन, एफआईसीडब्ल्यूए, 10, प्रथम मेन रोड, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोट्टुपुरम, चेन्नई-600085, (सदस्यता सं० 69), 3 अक्टूबर, 2002 से।
2. श्री आर. सुन्दर्शन, एमए, एमकॉम, बीएल, एआईसीडब्ल्यू, प्लॉट नं० 1547, 13 वां मेन रोड, अन्ना नगर वेस्ट, चेन्नई-600040 (सदस्यता सं० 158), 21 अप्रैल, 2002 से।
3. श्री सैलेन्द्र नाथ मुखर्जी एमकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, साई स्मृति, सरकारपाडा लेन, आपो. सरकारपाडा स्कूल, शेराफुली-712223 (सदस्यता सं० 271), 19 जुलाई, 2002 से।
4. श्री के. श्यामा राव, एआईसीडब्ल्यूए, 1257, 77वीं गली, 12 सेक्टर, के.के. नगर, चेन्नई-600078, (सदस्यता सं० 464), 30 जून, 2002 से।
5. श्री मुकुन्द बापूराव चावरे, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, ए-5, मलकानसा सोसायटी, 41/5, इरेडवाने, पौड फट्टा, कार्वे रोड, पुणे-411038, (सदस्यता सं० 583), 12 सितम्बर, 2002 से।
6. श्री एस. पांडुरंगा, बीए, डीआईपी, एमए, एफआईसीडब्ल्यूए, पूर्व-महा प्रबंधक (वित्त), बीएचईएल, आर.सी.पुरम, हैदराबाद-500032 (सदस्यता सं० 1842), 31 दिसम्बर, 2002 से।
7. श्री वेंकटरमण, शिवारामन, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट 201, दूसरी मंजिल, अनुभव, 29, जोगेशवरी सीएचएस, जोगेशवरी ईस्ट, मुम्बई-400060, (सदस्यता सं० 1950), 18 सितम्बर, 2002 से।
8. श्री हेमेन्द्र नाथ बैनर्जी, एमकॉम, एसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, 5/1के, राजा अपूर्वा कृष्णा लेन, कोलकाता-700050, (सदस्यता सं० 2337), 7 अगस्त, 2002 से।

9. श्री दीनानाथ चतुर्वेदी, एमकॉम, एफसीए, एफआईसीडब्ल्यूए, 502/602, आदिबाबा, 16 वां रोड, आफ. रामकृष्ण मिशन रोड, सांताक्रुज(वेस्ट), मुम्बई-400054, (सदस्यता सं० 2462) 1 फरवरी, 2001 से ।
10. श्री एस.एन. श्रीवास्तव, एमकॉम, एफसीए, एफआईसीडब्ल्यूए, 1349, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, (सदस्यता सं० 2697), 24 नवम्बर, 2001 से ।
11. श्री एम. राघव, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, ए2/8, सिद्धार्थनगर, गोरेगांव, मुंबई-400062, (सदस्यता सं० 3613) 19 नवम्बर, 2001 से ।
12. श्री शांताराम एम. वागले, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, सुयश, 37, सरस्वती बाग, जोगेशवरी(ईस्ट), मुम्बई-400060, (सदस्यता सं० 3863) 17 मई, 1998 से ।
13. श्री एम.वी. सुब्बा राव, बीकॉम, एलएलबी, एफआईसीडब्ल्यूए, डी/166, कोयल नगर, राऊरकेला-769014, (सदस्यता सं० 4573) 11 सितम्बर, 2002 से ।
14. श्री डी.वी. सुब्रमण्यम, बीकॉम, एएससी, एफआईसीडब्ल्यूए, 5-114, भवानी नगर, दिलसुखनगर बस डिपो के पीछे, हैदराबाद-500036, (सदस्यता सं० 5472) 19 सितम्बर, 1996 से ।
15. श्री के. पदमानाभ, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, पूर्व-सहायक मैनेजर(एफ एंड ए)-कोस्ट, राऊरकेला स्टील प्लांट, एसएआईएल, एडमिनि. बिल्डिंग, राऊरकेला-769011, (सदस्यता सं० 6678 11 सितम्बर, 2002 से ।
16. श्री आर. पदमानाभन, बीटेक, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं० 3, कृष्णा अपार्टमेंट्स, फोर बंगलोज, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-400053, (सदस्यता सं० 6781 15 अक्टूबर, 1992 से ।
17. श्री डी.के. अग्रवाल, बीए, एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, ए-10/3ए, कोहिनूर अपार्टमेंट्स, कालकाजी एक्स., नई दिल्ली-110019, (सदस्यता सं० 10281 22 अगस्त, 2002 से ।
18. श्री गोपालकृष्ण पी. नायर, बीएससी, एआईसीडब्ल्यू, बी5, नीलकंठ छाया, आर.बी.मेहता रोड घाटकोपर (ईस्ट), मुंबई-400077, (सदस्यता सं० 12507) 16 अगस्त, 2002 से ।
19. श्री जी.वी. कामत, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, पूर्व-कॉस्टिंग आफिसर, मै० हरकुलस ह्यूटस लि, 110, मिनर्वा इन्ड. एस्टेट, मुलुंद(वे.), मुम्बई-400080, (सदस्यता सं० 14378), 24 दिसम्बर, 2002 से ।
20. श्री के. शंकर, एमए, एआईसीडब्ल्यू, सं० 27, एलआईसी कालोनी, डा० राधा कृष्ण नगर, तिरुवनमियुर, चेन्नई-600041, (सदस्यता सं० 16242), 30 सितम्बर, 2002 से ।
21. श्री दीपक बालसुब्रमण्यन, बीई, एआईसीडब्ल्यूए, सी-4, बुडलैंड, 23, डा० रघुनाथ मार्ग बांद्रा, मुम्बई-400050, (सदस्यता सं० 20231), 31 जनवरी, 2002 से ।

22. श्री बी. वेंकट नरसैय्या, बीकॉम, एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, 1-8-702/43, पदमा कालोनी, नाला कुंटा, शंकर मठ के पीछे, हैदराबाद-500044, (सदस्यता सं० 1550), 18 दिसम्बर, 2002 से, और
23. श्री राजागोपालन मेलातुर पंचापेगिसन, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, 30/4, बालकृष्ण रोड, रामानियम फ्लैट्स, वाल्मीकि नगर, चेन्नई-600041, (सदस्यता सं० 390) 20 जनवरी, 2003 से ।

बी. वी. रामना मूर्ति
अध्यक्ष

कोलकाता, दिनांक 31 मार्च, 2003

16-सीडब्ल्यू आर (1374-1385)/2003: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेन्ट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउटेन्ट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउटेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री एस. कृष्णशंकरन, बीए, एआईसीडब्ल्यूए, सं० 6, 6ठा क्रॉस, भारती नगर, लाज पेट पो.आ., पांडिचेरि-605008, (सदस्यता सं० 55) 30 दिसम्बर, 2002 से ।
2. श्री के.एल.एन. कानका राजु, बीकाम, एआईसीडब्ल्यूए, 6-3-609/124ए, आनन्द नगर, खैराताबाद, हैदराबाद-500004, (सदस्यता सं० 850) 1 जुलाई, 2002 से ।
3. श्री वी.के. कोटक, बीए, एसीआईएस(लन्ड), एसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, सी-11 ब्लॉक-सी, ग्रेटर कैलाश (एक), नई दिल्ली-110048, (सदस्यता सं० 640) 12 अक्टूबर, 2002 से ।
4. श्री एम. कृष्णामूर्ति, एफआईसीडब्ल्यूए, प्लॉट 38, कन्नाबिरन कालोनी, डोर 2(न्यू 19), कन्नामल स्ट्रीट, सालिग्राम, चेन्नई-600093, (सदस्यता सं० 1724) 7 अक्टूबर, 2002 से ।
5. श्री बी.के. शिवाराव, बीए, एसीए, एआईसीडब्ल्यूए, 6, महिपेत सोसाइटी, नजदीक अमर हिंद मंडल, गोखले रोड(उत्तर), दादर (वेस्ट), मुम्बई-400028, (सदस्यता सं० 1866) 1 अप्रैल, 2003 से ।
6. श्री एन.एल. खन्ना, एफआईसीडब्ल्यूए, 325, सेक्टर 16, पंचकुला (हरियाणा), (सदस्यता सं० 2656) 20 फरवरी, 2003 से ।
7. श्री एच.एम. लाला, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 72, 'वृन्दावन', एल.बी. शास्त्री मार्ग, पाटकोपर, मुम्बई-400086, (सदस्यता सं० 2903), 5 जनवरी, 2003 से ।

8. श्री के.एम. देसाई, बीए, एआईसीडब्ल्यूए, नं० 46, 4 था मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, तीसरी स्टेज, बासवेश्वर नगर, बंगलौर-560079, (सदस्यता सं० 3896), 22 अगस्त, 2002 से ।
9. श्री एन.आर. कुमार, बीकॉम, एसीए, एआईसीडब्ल्यूए, 10, देवशिकामनी रोड, रोयापेट, चेन्नई-600014, (सदस्यता सं० 4686) 15 अक्टूबर, 2002 से ।
10. श्री के.एम. लाल, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 502-बी, सुमन अपार्ट., लोखंडवाला काम्प्लेक्स, आफ. फोर बंगलोज, अंधेरी (वे.), मुम्बई-400053, (सदस्यता सं० 9505) 16 अक्टूबर, 2002 से ।
11. श्री सुब्रता बैनर्जी, बीकाम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 188/8ए, पिस अनवर शाह रोड, कोलकाता-700045, (सदस्यता सं० 22079), 16 अगस्त, 2002 से, और
12. श्री सी.पी.एस. मेनन, बीकॉम, एसीएमए, एफआईसीडब्ल्यूए, 2 डी, इडन अपार्ट., 1, किलपाक गार्डन रोड, प्रथम गली, किलपाक, चेन्नई-600010, (सदस्यता सं० 3684) 31 मार्च, 2003 से ।

बी. बी. रामना मूर्ति
अध्यक्ष

काजकाल, दिनांक 5 दिसंबर, 2003

16-रीडिंग्स आर (1386-1408)/2003: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री जे.पी. बेरी, एमए, एसीएमए, एफआईसीडब्ल्यूए, एस-202, ग्रेटर कैलाश II, नई दिल्ली-110048, (सदस्यता सं० 2837), 25 मई, 2003 से ।
2. श्री सी.एम. नंजुनदास, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, 407, 8 वी 'बी' मेन रोड, जयानगर IV ब्लॉक वेस्ट, बंगलौर-560011, (सदस्यता सं० 750), 10 सितंबर, 2003 से ।
3. श्री के.आर. वेंकटेश्वरन, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 35, अनुभव बिल्डिंग, एलआईसी कालोनी, आर.पी. रोड, मुलुंद (वे.), मुंबई-400080, (सदस्यता सं० 2483), 27 मई, 2000 से ।
4. श्री सुधांशु भूषण पाल, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, रामपुर रोड, बांकुरा-722101, (सदस्यता सं० 286), 28 फरवरी, 1999 से ।
5. श्री टी.एम. कृष्णन, एमए, एसीए, एफआईसीडब्ल्यूए, 7, लक्ष्मीपुरम रोड, रोयापेट, चेन्नई-600014, (सदस्यता सं० 116), 10 नवंबर, 2002 से ।
6. श्री आर. हरिहरन, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, रामा निवास, टी.सी. 23/513, चिन्नाचलई स्ट्रीट, तिरुवनंतपुरम-695036, (सदस्यता सं० 1216), 17 अप्रैल, 2003 से ।
7. श्री ज्योतिर्माय मुखर्जी, एमकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 190सी, पारनाश्री, पहली मंजिल, फ्लैट 3, कोलकाता-700060, (सदस्यता सं० 4040), 3 दिसंबर, 2002 से ।
8. श्री आर. बालगंगाधरन, एमए, बीकॉम, एफसीए, एफसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, 683, माउंट रोड, चेन्नई-600006, (सदस्यता सं० 14625), 3 फरवरी, 2001 से ।
9. श्री एन.पी. गोपालकृष्णन, एमएससी, एफआईसीडब्ल्यूए, श्रीपदम, III ओम रोड, कोचि-682016, (सदस्यता सं० 686), 28 मई, 2003 से ।
10. श्री राकेश के. मल्होत्रा, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 9, अनुमान शरण, (दूसरी मंजिल), 87ए, बोमोजी पेटित रोड (गार्डन रोड), मुंबई-400028, (सदस्यता सं० 6653), 4 फरवरी, 2003 से ।
11. श्री एम.ओ. जोसाफ, एफआईसीडब्ल्यूए, पूर्व-महाप्रबंधक सीएसडीए इंटरनेशनल लि०, पो.ओ. बॉक्स 34704, लुसाका, जाम्बिया, (सदस्यता सं० 2511), 25 जनवरी, 2002 से ।
12. श्री एम.एन. वासुदेवन, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, जार्ज ऑफ फुजरोह, पो.ओ. बॉक्स 787, फुजरोह, संयुक्त अरब अमीरात, (सदस्यता सं० 6013), 26 जून, 2001 से ।

13. श्री रतन चन्द्र मंडल, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यू, 35/1, श्री चरण सरनी, बाली-711201, (सदस्यता सं० 2913), 30 अप्रैल, 1994 से ।
14. श्री एन. वेंकटस्वामी, एफआईसीडब्ल्यू, नं० 53, अन्नाह रेड्डी, उलसूर, बंगलौर-560008, (सदस्यता सं० 646), 31 दिसंबर, 1992 से ।
15. श्री टी. कामेश्वर राव, बीकॉम, एफसीए, एफआईसीडब्ल्यू, मानटन हाउस, अपार्ट. 4ए, 139-0585 ड्राईव, केंव गार्डन, क्वीन्स, न्यू यार्क 11435-2703, यू.एस.ए., (सदस्यता सं० 1144), 30 अप्रैल, 2001 से ।
16. श्री वी. सुब्रमणियन, बीकॉम, एसीए, एआईसीडब्ल्यू, सं० 4, तत्व भवन, प्लॉट नं० 39, पेरुतम सागर, मुंबई 400089, (सदस्यता सं० 3387), 30 सितंबर, 1999 से ।
17. श्री वी. वर्दाराजन, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यू, प्लॉट नं० 41, डोर नं० 10 (पुराना 11ई), III मेन रोड, जगन्नाथपुरम, वेलाचेरी, चेन्नई-600042, (सदस्यता सं० 620), 31 अक्टूबर, 2001 से ।
18. श्री रमेश चन्द्र गोयल, एमए, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यू, ई-416, ग्रेटर कैलाश II नई दिल्ली-110048 (सदस्यता सं० 36), 31 दिसंबर, 2001 से ।
19. श्री जे.के. बनिक, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यू, एक्स. एकाउंटेंट वर्क्स, कॉटेज ऑफ इंडिया लि०, ट्रांसपोर्ट डिपो रोड, तारातला, कोलकाता-700088, (सदस्यता सं० 12622), 1 जनवरी, 2003 से ।
20. श्री सी.एन. घडीवाला, बीए, एसीएमए, एआईसीडब्ल्यू, सं० 1, कृष्णा कुंज सोसा., नजदीक इंडोर स्टेडियम, ऑफ. घोड डोड रोड, अटवा लाईन्स, सूखत-395007, (सदस्यता सं० 7431), 24 मार्च, 2003 से ।
21. श्री आर.एस. कनेगांवकर, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यू, 204, सनराईज 'ए' विंग, अपनाघर, यूनिट 7, स्वामी समारथ नगर, अंधेरी (वे.), मुंबई-400053, (सदस्यता सं० 1690), 20 मई, 2003 से ।
22. श्री के. सुन्दररमण, बीएससी, बीएल, एसीएमए, एआईसीडब्ल्यू, पूर्व-उप महाप्रबंधक (एफ ऐंड ए), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मद्रास हवाई अड्डा प्रोजेक्ट, मीनाबक्कम, चेन्नई-600027, (सदस्यता सं० 3388), 31 दिसंबर, 2002 से ।
23. श्री वाई.वी. पुरी, एमए (इकॉन एवं इन्ज.), एफसीएमए, एआईसीडब्ल्यू, सी/140, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015, (सदस्यता सं० 2735), 27 जनवरी, 2003 से ।

डा. के. एल. जयसिंह
अध्यक्ष

16-सीडब्ल्यू आर (1409-1422)/2003: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर स.स.स. रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री आर. गोविंदराजन, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यू, 32, 28वीं क्रॉस स्ट्रीट, बसंत नगर, चेन्नई-600090, (सदस्यता सं० 806), 25 नवम्बर, 2003 से ।
2. श्री ए.आर. कावरना, बीकॉम, एसीएमए, एआईसीडब्ल्यू, 'सामरथ', 607सी, खारेघाट रोड, दादर, मुंबई-400014, (सदस्यता सं० 1393), 22 सितंबर, 2003 से ।
3. श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता, एमकॉम, एफआईसीडब्ल्यू, जे-19, सैक्टर नं० 12, नोएडा-201301, (सदस्यता सं० 2148), 6 अक्टूबर, 2003 से ।
4. श्री मंजुनाथ चटर्जी, बीएससी, एफआईसीडब्ल्यू, ए-8/416, कल्याणी-741235, डा. नाडिया, प.ब., (सदस्यता सं० 4986), 9 मई, 2003 से ।
5. श्री मोहन वी. पटवर्धन, एमकॉम, एफआईसीडब्ल्यू, 47, जयविजय सोसायटी, हाईवे, सहर, मुंबई-400099, (सदस्यता सं० 2312), 21 मई, 2003 से ।
6. श्री किशन जीवतराम मल्कानी, बीएससी, एआईसीडब्ल्यू, 40, लवडाले एपार्ट., मिनियोडेसो मार्ग, कोलाबा, मुंबई-400005, (सदस्यता सं० 2246), 19 जुलाई, 2003 से ।
7. श्री एच.सी. माथुर, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यू, पुंडरीकाक्ष, ए-110, रघु मार्ग, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर-302021, (सदस्यता सं० 4104), 12 जुलाई, 2003 से ।

8. श्री पी. सुदर्शन, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं० 203, बिल्डिंग सं० डी2, लोक उपावन, फेस 2, श्रीमती ग्लडिस अल्वास्स रोड, ऑफ. दूसरा पोखरन रोड, थाणे(वेस्ट)-400601, (सदस्यता सं० 2573), 18 जुलाई, 2003 से ।
9. श्री सुरेन्द्र खेमका, एमकॉम, एफसीए, एफसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, एफ-170, रामपत, श्याम नगर एक्स., जयपुर-302019, (सदस्यता सं० 6135), 25 अगस्त, 2003 से ।
10. श्री एम.सीतारमन, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, नया नं० 39, 5वां मेन रोड, कस्तूरबा नगर, अंदयार, चेन्नई-600020, (सदस्यता सं० 831), 17 सितंबर, 2003 से ।
11. श्री एल. चन्द्रमौली, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, 10, दंदापानी स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-600017, (सदस्यता सं० 11195), 14 अक्तूबर, 2003 से ।
12. श्री वाई.पी. धीर, बीए(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 1321, सैक्टर 18-सी, चंडीगढ़-160018, (सदस्यता सं० 1907), 19 सितंबर, 2003 से ।
13. श्री वी.एस. भंसाली, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, नंदराम मार्केट, कमरा सं० 603, ईस्ट ब्लॉक, पी-4, नया हायला दिज आग्रोच रोड, कोलकाता-700001, (सदस्यता सं० 2044), 1 जुलाई, 2003 से, और
14. श्री के.के. रंगराजन, एमकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 920, 9वां मेन, 9 वां क्रॉस, डा० श्रीनिवासाय ब्लॉक, वीरएमएल लेआउट III स्टेज, राजेशवरी नगर, बंगलूर-560098, (सदस्यता सं० 1416), 30 मई, 2003 से ।

डा. के. एल. जयसिंह
अध्यक्ष

कोलकाता, दिनांक 19 मार्च, 2002

18-सीडब्ल्यू आर (335)/2002: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 18 के अनुसरण में सूचित किया जाता है उक्त विनियम के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 18 जनवरी, 2002 से श्री बाल कृष्ण अजमानी, एम.कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 1249, सैक्टर 44 बी, चंडीगढ़-160047 (सदस्यता सं० 5242) के नाम की सदस्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है ।

एस. आर. आचार्य
सलाहकार/सचिव

कोलकाता, दिनांक 24 जून, 2002

18-सीडब्ल्यू आर (336-337)/2002: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 18 के अनुसरण में सूचित किया जाता है उक्त विनियम के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 9 अप्रैल, 2002 से श्री रामचन्द्र रामानाथन, बी कॉम, एआईसीडब्ल्यूए, सं० 10, रंजीत रोड (पुराना नं० 7), कोट्टुपुरम, चेन्नई-600085 (सदस्यता सं० 1267) तथा 6 मार्च, 2002 से श्री ए.के. वेंकटेश्वरन, एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए, बी2, प्रथम मंजिल, वेंकटेश्वर अपार्टमेंट्स, कृपा काम्प्लेक्स के पीछे, नेरेडमेट, सफिलगुडा, सिकन्दरागाद-500056 (सदस्यता सं० 893) के नामों की सदस्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है ।

बी. वी. देवधर
अध्यक्ष

कोलकाता, दिनांक 29 सितंबर, 2003

18-सीडब्ल्यू आर (338-339)/2003: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 18 के अनुसरण में सूचित किया जाता है उक्त विनियम के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 10 जून, 2003 से श्री अशोक जौली, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, डी/503, कावेरी अपार्टमेंट्स, अलखनंदा, नई दिल्ली-110019, (सदस्यता सं० 5070) तथा 24 सितंबर, 2003 से श्री सतपाल कुमार अरोड़ा, एमकॉम, एलएलबी, एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए, 205, फैंसी अपार्टमेंट, 19, जगुधरा एन्क्लेव, दिल्ली-110096, (सदस्यता सं० 6569) के नामों की सदस्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है।

डा. के. एल. जयसिंह
अध्यक्ष

कोलकाता, दिनांक 23 फरवरी, 2004

18-सीडब्ल्यू आर (340)/2004: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 18 के अनुसरण में सूचित किया जाता है उक्त विनियम के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने 15 जनवरी, 2004 से श्री रमणिकलाल जयंतीलाल मेहता, बीएससी, एफआईसीडब्ल्यूए, 42, अरुणोदे सोसायटी, ए/9, वंदेमातरम फ्लैट्स, अलकापुरी, बडोदरा-390007, (सदस्यता सं० 2199) के नाम की सदस्य रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है।

डा. के. एल. जयसिंह
अध्यक्ष

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 21st October 2005

DBOD.No.PSBD. 390./16.01.130/2005-06

October 21, 2005

In pursuance of clause (c) of sub- section (6) of section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made with effect from October 17, 2005 in the Second Schedule to the said Act namely :-

For the words ' CENTURION BANK LIMITED' the words 'CENTURION BANK OF PUNJAB LIMITED' shall be substituted.

USHA THORAT
Executive Director

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(HEAD OFFICE)

New Delhi, the November 2005

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. I

S.O. _____ whereas
the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, _____ Delhi _____ from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of the establishment	Period of Exemption	
			From	To
1	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/ Dt.	M/s. Mota Singh Sr. Sec. Model School (DL/5811)	01-10-01 01-10-04	30-09-04 30-09-07
2	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/ 1002 Dt. 15-10-04	M/s. Ahlzon Public School (DL/12563)	01-01-02 01-01-05	31-12-04 31-12-07
3	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/ 1002 Dt. 15-10-04	M/s. Ahlcon Public School (Nursery) (DL/12564)	01-01-02 01-01-05	31-12-04 31-12-07
4	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1683 Dt. 21-06-99	M/s. Insilco Ltd. (DL/11577)	01-08-97 01-08-00 01-08-03	31-07-00 31-07-03 31-07-06
5	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1000 Dt. 28-05-02	M/s. Escorts Ltd. (DL/776)	18-09-00 18-09-03	17-09-03 17-09-06
6	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt.	M/s. J.K. Corporation Ltd. (DL/2806)	01-03-05	29-02-08
7	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/ 2659	M/s. Vasco Travels (P) Ltd. (DL/15228)	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
8	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1026 Dt.	M/s. Japan Travels Services (DL/19124)	01-12-04	30-11-07
9	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/ 399 Dt. 08-06-04	M/s. OKS Span Tech. (P) Ltd. (DL/23647)	01-08-04	31-07-07
10	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 2083 Dt. 05-07-99	M/s. State Trdaing Corpn. India Ltd. (DL/791)	01-04-02	31-03-05
11	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 4007 Dt. 16-01-01	M/s. Bax Global India Ltd. (DL/14261)	01-02-99 01-02-02	31-01-02 31-01-05
12	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/ 984 Dt. 17-10-04	M/s. Peta Maid Hospital (DL/19594)	01-09-04	31-08-07
13	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.II/ 1892 Dt. 27-01-04	M/s. Aravali Securitics & Finance Ltd. (DL/8370)	01-01-05	31-12-07

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.

9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

SURAJ SHARMA
Regional P.F. Commissioner-II

MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGAINISATION
(HEAD OFFICE)
NEW DELHI-110066

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. I

S.O. _____ whereas

the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh _____ from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

Contd...2

SCHEDULE-I

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of the establishment	Period of Exemption	
			From	To
1	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 2062 Dt. 03-05-93	M/s. Coastal Packagings, Guntur AP/11809	01-12-93 01-12-96 01-12-99 01-12-02	30-11-96 30-11-99 30-11-02 30-11-05
2	-do-	M/s. Chetainya Packaging, Guntur, AP/19103	01-12-93 01-12-96 01-12-99 01-12-02	30-11-96 30-11-99 30-11-02 30-11-05
3	-do-	M/s. Vamsy Trade Links, Guntur, AP/19102	01-12-93 01-12-96 01-12-99 01-12-02	30-11-96 30-11-99 30-11-02 30-11-05
4	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 2396 Dt. 02-11-98	M/s. St. Peter's High School, Warangal AP/19637	01-03-00 01-03-03	28-02-03 28-02-06
5	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1731 Dt. 23-08-95	M/s. Kusalava Motors Pvt. Ltd., Vijayawada AP/3812	28-12-96 28-12-99 28-12-02	27-12-99 27-12-02 27-12-05
6	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ Dt. Nil	M/s. Sree Surya Motor Works, Vijayawada AP/2014	01-03-03	28-02-06
7	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 3532 Dt. 10-01-99	M/s. Navatha Road Transport, Vijayawada AP/13624	01-08-04	31-07-07
8	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.II/ 5398 Dt. 14-01-00	M/s. Kranthi Road Transport (P) Ltd., Vijayawada AP/16585	01-03-04	28-02-07
9	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 995 Dt. 07-05-02	M/s. V.S.T Industries Ltd. AP/146	24-06-03	23-06-06
10	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 192 Dt. 18-01-93	M/s. N.S.T. Mathews Public School, Vijayawada AP/GT/16571	01-07-92 01-07-95 01-07-98 01-07-01 01-07-04	30-06-95 30-06-98 30-06-01 30-06-04 30-06-07
11	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.II/ 5299 Dt. 12-01-00	M/s. Spectra Foods & Beverages Pvt. Ltd., Vijayawada AP/GT/13987	01-01-04	31-12-06
12	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 2061 Dt. 08-09-97	M/s. The Andhra Sugar Ltd., Tanuku AP/47	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-05

13	-do-	M/s. The Andhra Sugar Ltd., Tanuku AP/1622	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-05
14	-do-	M/s. The Andhra Sugar Ltd., Tanuku AP/2228	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-05
15	-do-	M/s. The Andhra Sugar Ltd., Tanuku AP/2229	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-05
16	-do-	M/s. The Andhra Sugar Ltd., Tanuku AP/2904	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-05
17	-do-	M/s. The Andhra Sugar Ltd., Tanuku AP/6756	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-05
18	-do-	M/s. The Andhra Sugar Ltd., Tanuku AP/31674	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-05
19	-do-	M/s. The Andhra Sugar Ltd., Tanuku AP/35134	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-05
20	File No. 1(67)/2003	M/s. P.S.C Bose Automobiles, Vijayawada AP/4522	01-03-04	28-02-07
21	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 4868 Dt. 12-03-98	M/s. Sri Santhya Satya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Prashantagram AP/25594	01-11-00 01-11-03	31-10-03 31-10-06
22	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1467 Dt. 11-06-99	M/s. Godavari Grameen Bank, Rajahmundry AP/17593	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07
23	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 995 Dt. 08-05-02	M/s. Ushodaya Publications, Vishakhapatnam AP/5321	22-12-02	21-12-05
24	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 6079 Dt. 14-02-00	M/s. The Andhra Petro Chemicals Ltd., Tanuku AP/17551	30-03-02	29-03-05
25	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 3532 Dt. 10-01-99	M/s. The Krishnaveni Agro oil Products Ltd. AP/JT/16507	01-07-01 01-07-04	30-06-04 30-06-07
26	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1869 Dt. 12-01-04	M/s. Usha Kiran Television AP/36424	01-03-04	28-02-07
27	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1008 Dt. 20-05-99	M/s. City Cardiac Research Center Ltd. AP/23580	01-05-01 01-05-04	30-04-04 30-04-07
28	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 2791 Dt. 06-11-97	M/s. Siris Laboratories (P) Ltd. AP/	01-11-97 01-11-00 01-11-03	31-10-00 31-10-03 31-10-06
29	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 2807 Dt. 20-11-00	M/s. P.E. Engineers (P) Ltd. AP/4803	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
30	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 149 Dt. 23-01-92	M/s. Anjaneya Roller Flour Mills (P) Ltd. AP/16320	01-04-04	31-03-07

SCHEDULE-I

S. No.	Name of the establishment	Code No.	Period of Exemption	
			From	To
1	M/s. Cheminar Drugs (Dr. Reddy Lab), Vishakhapatnam	AP/20358	01-07-02	30-06-05
2	M/s. Tycoon & Heritage Restaurants, Vishakhapatnam	AP/36703	01-09-01 01-09-04	31-08-04 31-08-07
3	M/s. Synergies Dooray Automotives Ltd.	AP/31883	01-04-01 01-04-04	31-03-04 31-03-07

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.

9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

SURAJ SHARMA
Regional P.F. Commissioner-II

**MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGAINSATION
(HEAD OFFICE)
14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066**

Dated:

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. I

S.O. _____ whereas
the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the
said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of
the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952)
hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the
employees of the said establishments are without making any separate contribution or
payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the
life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more
favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section
17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to,
the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned
establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date
relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional
Provident Fund Commissioner, _____ Tamil Nadu _____ from the
operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

Contd...2

SCHEDULE-I

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of the establishment	Period of Exemption	
			From	To
1	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ Dt. 03-04-04	M/s. Pope The King Match Factory, Kovilpatti TN/2746	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
2	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 899 Dt. 08-06-04	M/s. Rewafa Tooling (P) Ltd., Hosur TN/35170	01-11-03	31-10-06
3	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 8101 Dt. 30-11-04	M/s. Trinity Nursing Home (P) Ltd. TN/26274	01-12-00 01-12-03	30-11-03 30-11-06
4	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 21-01-04	M/s. Bombay Ammonia (Madras) Pvt. Ltd. TN/3203	01-03-04	28-02-07
5	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 698 Dt. 28-08-01	M/s. Kabrajee Garments TN/17433	01-12-03	30-11-06
6	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 2779 Dt. 23-11-95	M/s. Automatic Industrial Seats (P) Ltd. TN/11172	01-04-96 01-04-99 24-06-00 24-06-03	31-03-99 23-06-00 23-06-03 23-06-06
7	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 860 Dt. 04-09-01	M/s. Omkar Fine Organs (P) Ltd. TN/PC/639	24-06-03	23-06-06
8	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 863 Dt. 04-09-01	M/s. Fie Star Business Credit Ltd. (Alongwith its 4 branches) TN/26805	01-10-03	30-09-06
9	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 909 Dt. 21-09-01	M/s. Hatsun Agro Products Ltd. TN/35803	01-12-03	30-11-06
10	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 554 Dt. 14-07-04	M/s. Sundaram Break Lining Ltd. TN/10771	01-03-04	28-02-07
11	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 909 Dt. 21-09-01	M/s. M.C. Rennet Foods Pvt. Ltd. (alongwith its 5 branches) TN/2922	24-06-03	23-06-06
12	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 399 Dt. 08-06-04	M/s. G.V. Exports TN/36957	01-03-04	28-02-07
13	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. Kiwi Konveyors TN/19263	01-03-04	28-02-07
14	2/1878/DLI/Exemp/89/Pt.I/ Dt. 12-01-04	M/s. S.R. P. Tools Ltd. TN/9925	01-06-04	31-05-07

15	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 747 Dt. 29-08-01	M/s. India Cements Capital & Finance Ltd. TN/19925	24-06-03	25-06-06
16	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1897 Dt. 27-01-04	M/s. Apparel Industries TN/39261	01-03-04	28-02-07
17	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 554 Dt. 14-07-04	M/s. Lumiere Appliances (P) Ltd. TN/31462	01-12-03	30-11-06
18	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. Hi-Power Automotives Parts (P) Ltd. TN/10788	01-03-04	28-02-07
19	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. The Eimco KCP Ltd. TN/7383	01-03-04	28-02-07
20	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 991 Dt. 07-05-02	M/s. Sujay Spinners TN/11968	01-12-04	30-11-07
21	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1025 Dt. 02-08-02	M/s. Coimbatore Compressor Engg. Co. (P) Ltd. TN/33620	01-12-04	30-11-07
22	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1025 Dt. 02-08-02	M/s. MTA Mills (P) Ltd. Coimbatore TN/28172	01-01-05	31-12-07
23	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 991 Dt. 07-05-02	M/s. EID Parry (I) Ltd. TN/577	01-12-03	30-09-04
24	7/8/76/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1897 Dt. 27-01-04	M/s. Karur Distt. Consumers Co-op. Wholesale Stores Ltd. TN/43490	01-03-03	28-02-06
25	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 01-01-04	M/s. Toshniwall Hyvac (P) Ltd. TN/16239	01-03-04	28-02-07
26	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ Dt. 12-01-00	M/s. Popular Leather (P) Ltd. TN/23686	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-03
27	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 844 Dt. 30-08-00	M/s. Kaliswari Fire Works N/5037-F	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
28	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/ 747 Dt. 29-08-01	M/s. Kaliswari Fire Works TN/5128-A	24-06-03	23-06-06
29	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 3101 Dt. 30-11-00	M/s. Alex India Ltd. TN/18793	01-12-00 01-12-03	30-11-03 30-11-06
30	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 462 Dt. 13-05-97	M/s. Express Publications TN/25353	01-05-97 01-05-00	30-04-00 30-04-03

31	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5162 Dt. 09-02-01	M/s. Devi Fire Works (I) Ltd/ TN/6409	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
32	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 2308 Dt. 26-07-99	M/s. Prabhu Spinning Mills TN/41173	01-02-01 01-02-04	31-01-04 31-01-07
33	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 747 Dt. 29-08-01	M/s. Taj Serpent Engg. Factory TN/20539-B	24-06-03	23-06-06
34	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 156 Dt. 20-02-96	M/s. Parrys Confectionery TN/345-B	24-06-03	23-06-06
35	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 3101 Dt. 30-11-00	M/s. Ranganath Match Industries TN/6553-A	01-12-03	30-11-06
36	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5162 Dt. 09-02-01	M/s. Kaliswari Fire Works TN/5037-B	24-06-00 24-06-03	23-06-03 24-06-06
37	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 844 Dt. 30-08-00	M/s. Kaliswari Fire Works TN/5037-I	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
38	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 844 Dt. 30-08-00	M/s. Kaliswari Fire works TN/5037-D	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
39	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 99 Dt. 07-05-02	M/s. Desh to Desh Courier & Cargo Ltd. TN/31651	01-12-03	31-11-06
40	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 99 Dt. 07-05-02	M/s. Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. TN/31386	24-06-03	23-06-06
41	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 747 Dt. 29-08-01	M/s. D.F.C. Services (P) Ltd. TN/19731	24-06-03	23-06-06
42	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 863 Dt. 04-09-01	M/s. T.N. Handloom Weaver Co-op. Society Ltd. TN/2839	24-06-03	23-06-06
43	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 844 Dt. 30-08-00	M/s. Sri Kaliswari Fire Works TN/29768	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
44	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Orchid Medical Technology Ltd. TN/31198	24-06-03	23-06-06
45	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 2625 Dt. 03-08-93	M/s. Prachidhi Spinners (P) Ltd. TN/CBE/10247	01-12-03	30-11-06
46	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 991 Dt. 07-05-02	M/s. International Cleaning & Shipping Agency TN/2741	24-06-03	23-06-06

47	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 747 Dt. 29-08-01	M/s. NICCO UCD Alliance Credit Ltd. TN/10263	24-06-03	23-06-06
48	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 991 Dt. 07-05-02	M/s. A. Madhavan & Co. TN/31402	24-06-03	23-06-06
49	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 909 DT. 21-09-01	M/s. The Simpson & Group Co. Engineers Co-op. Society Ltd. TN/5740	01-12-03	30-11-06
50	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 2635 Dt. 03-08-93	M/s. Interfit India Ltd. TN/16642	01-01-91 01-01-94 01-01-97 01-01-00	31-12-93 31-12-96 31-12-99 31-12-02
51	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 877 Dt. 15-05-99	M/s. EID Parry (I) Ltd. TN/345-F	01-03-00 01-03-03	28-02-03 28-02-06
52	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 37347 DT. 18-03-99	M/s. TVS Interconnected Systems Ltd. TN/24264	01-03-00 01-03-03	28-02-03 28-02-06
53	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 4466 Dt. 03-03-98	M/s. Sakthi Soft Drinks Ltd. TN/21889	01-09-99	31-03-03
54	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 3191 Dt. 30-1-02	M/s. The National Co-op. Sugar Mills Ltd. TN/5982	01-12-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
55	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 991 Dt. 07-05-02	M/s. Jai Motor Ltd. TN/11920	01-12-03	30-11-06
56	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 747 Dt. 28-08-01	M/s. Taj Fire Works (Industries TN/20539-A	24-06-03	23-06-06
57	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5162 Dt. 09-02-01	M/s. Minerva Fire Works Industries TN/6431	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
58	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 991 Dt. 07-05-02	M/s. Ashoka Leyland Ltd. TN/11727	24-06-03	23-06-06
59	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 747 Dt. 29-08-01	M/s. Sri Kaliswari Fire Works Ltd. TN/9582	24-06-03	23-06-06
60	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5162 Dt. 09-02-01	M/s. Ayyan Fire Works Factory (P) Ltd. TN/6433-A	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
61	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 2714 DT. 10-08-99	M/s. Flater Traders TN/8274	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06

62	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5162 Dt. 09-02-01	M/s. Sri Kaliswari Fire Works TN/5037-A	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
63	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 747 Dt. 29-08-01	M/s. Hydro SFS Industries TN/PC/644	24-06-03	23-06-06
64	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 698 Dt. 28-08-01	M/s. Aban Engineers Ltd. TN/30483-A	24-06-03	23-06-06
65	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 877 Dt. 15-05-99	M/s. Chandra Textiles Ltd. TN/CBE/932	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
66	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 933 Dt. 19-05-99	M/s. Needle Industries (I) Pvt. Ltd. TN/CBE/854	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
67	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 991 Dt. 07-05-02	M/s. Universal Paint System TN/16833-A	24-06-03	23-06-06
68	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 933 Dt. 19-05-99	M/s. Elgi Equipments TN/CBE/35125	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
69	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5383 Dt. 23-02-01	M/s. Narian Krishan Spinners Ltd. TN/CBE/8842	04-06-03	31-05-06
70	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5162 Dt. 09-02-01	M/s. Coimbatore Security (P) Ltd. TN/CBE/21615	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
71	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 281 Dt. 07-04-99	M/s. Graham Fire Works Industries TN/5594	24-06-03	23-06-06
72	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5360 Dt. 13-01-01	M/s. Milgarlan Applicators (P) Ltd. TN/19917	01-09-03	31-08-06
73	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 909 Dt. 21-09-01	M/s. Magnetic Metro Systems (I) Ltd. TN/PC/815	24-06-03	23-06-06
74	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 2104 Dt. 07-05-93	M/s. Kilponathur Milk Producers Co-op. Society Ltd. TN/17529	01-01-95 01-01-98 01-01-01	31-12-97 31-12-00 31-12-03
75	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 4392 Dt. 22-09-99	M/s. Krebs Engg. (P) LTD. TN/10868	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
76	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 866 Dt. 4901	M/s. Four Links (I) Pvt. Ltd. TN/PC/532	24-06-03	23-06-06
77	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1025 Dt. 02-28-02	M/s. Rare Breaks Links Ltd. TN/PC/790	24-06-03	23-06-06

78	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1025 Dt. 02-08-02	M/s. Chayyar MPCs TN/9049	01-08-00	31-07-03
79	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 5300 Dt. 19-02-01	M/s. Cape Flour Mills TN/20624	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
80	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 866 DT. 04-09-01	M/s. Ucal Fuel System Ltd. TN/PC/692	24-06-03	23-06-06
81	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 857 Dt. 04-09-01	M/s. Indian Pottash Ltd. TN/2840	01-12-03	30-11-06
82	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1648 DT. 21-06-99	M/s. The Southern Textiles Ltd. TN/CBE/937	27-12-00 27-12-03	26-12-03 26-12-06
83	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1648 DT. 18-03-99	M/s. Badiya Brothers & Co. TN/8464	01-01-00	31-04-02
84	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1897 Dt. 27-01-04	M/s. Southern Auto Casting (P) Ltd. TN/23477	01-12-03	30-11-06
85	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 747 DT. 29-08-01	M/s. Sri Kaliswari Roadways (P) Ltd. TN/41567	24-06-03	23-06-06
86	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. T I Metal Forming TN/16743	01-03-04	28-02-07
87	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. Match Engg. Company TN/17610	29-02-04	28-02-07
88	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1897 Dt. 27-01-04	M/s. Madras Medical Mission TN/23779	01-05-04	30-04-07
89	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 844 Dt. 30800	M/s. Sri Kaliswari Fire Works TN/5025-A	24-06-00 24-06-03	23-06-03 23-06-06
90	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Laxmi Machine Works Ltd. TN/CBE/5320-A	01-03-05	29-02-08
91	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Shanthi Gears Ltd. TN/8537-C	01-03-05	29-02-08
92	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 52 Dt. 03-04-02	M/s. Vidya Mandir Hr. Sec. School TN/22661	01-08-02	31-07-05
93	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1860 DT.	M/s. Hatsun Agro Products Ltd. TN/16356	24-06-03	31-10-03

94	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1897 Dt. 27-01-04	M/s. Interfit Techo Products TN/33959	01-02-05	31-01-08
95	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1878 Dt. 18-02-03	M/s. Jaylakhmi Machine Works TN/21425	01-03-05	29-02-08
96	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Sangeeth Textiles Ltd. TN/21343	01-02-05	31-01-08
97	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1025 Dt. 02-08-02	M/s. Best & Co. TN/33746	01-02-05	31-01-08
98	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Krishan Swami Nagar Ganganagar Matriculation School TN/CBE/21570	01-03-05	28-02-08
99	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1818 Dt. 12-01-04	M/s. NLC Employees Co-op. Thrift & Credit Society Ltd. TN/TR/8170	01-01-04	31-12-06
100	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 2761 Dt. 10-08-99	M/s. Bethesda Hospital TN/10759	01-03-01 01-03-04	29-02-04 28-02-07
101	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. Indaid Engineers (P) Ltd. TN/26117	01-03-04	28-02-07
102	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. Rotork Controls (I) Pvt. Ltd. TN/	29-02-04	28-02-07
103	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 554 Dt. 14-07-04	M/s. Bayer TPU (P) Ltd. TN/27530	01-11-03	31-10-06
104	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 36464 Dt. 25-09-01	M/s. Sri Ayyanar Spinning & Weaving Mills Ltd. TN/5058	11-04-01 11-04-04	10-04-04 10-04-07
105	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Coimbatore Murugan Mills TN/CBE/58	01-12-04	30-11-07
106	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Shanthi Gears Ltd. TN/853/7B	01-03-05	28-02-08
107	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Veejay Syntex (P) Ltd. TN/21341	01-03-05	28-02-07
108	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pl.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. SRSI Matri-higher Sec. School TN/21549	01-03-05	29-02-08

109	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. Lucas TVS Ltd. TN/4045	01-03-04	28-02-07
110	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. Bets & Crompton Engg. Ltd. TN/849	01-05-04	30-04-07
111	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1897 Dt. 27-01-04	M/s. Exim Knits (P) Ltd. TN/45697	01-02-05	31-01-08
112	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1878 Dt. 12-01-04	M/s. Usha Fire Safety Equipments TN/	01-09-03	31-08-06
113	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Laxmi Precision Tools Ltd. TN/6085	01-03-05	29-02-08
114	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1274 Dt. 18-02-03	M/s. Laxmi Ring Travellers TN/28919	01-12-04	30-11-07
115	2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/ 1025 Dt. 02-08-02	M/s. Venkata Lakshmi Spinners (P) Ltd. TN/17837	01-12-04	30-11-07

SCHEDULE-I

S. No.	Name of the establishment	Code No.	Period of Exemption	
			From	To
1	M/s. Pothys Cotton Products (P) Ltd., Madurai	TN/41505	29-09-03	28-09-06
2	M/s. Yenmaskay R. Ravindran Thilagavathy Matriculation Hr. Sec. School	TN/20608	01-08-04	31-07-07
3	M/s. Sri Magenta Chemicals (P) Ltd., Madurai	TN/37205	01-08-04	31-07-07
4	M/s. Fal Industries Ltd., Hosur	TN/16598	01-09-04	31-08-07
5	M/s. Agrim Automach (P) Ltd., Hosur	TN/47329	01-07-04	30-06-07
6	M/s. Tatra Trucks (I) Ltd., Hosur	TN/35434	01-09-04	31-08-07
7	M/s. Subramaniya Siva Co-op. Sugar Mills, Dharmapuri	TN/34664	01-04-03	31-03-06
8	M/s. Talema Electronics (I) Pvt. Ltd., Selam	TN/35452	01-05-99	30-04-02
9	M/s. S.K. Cars (I) Pvt. Ltd., Selam	TN/35198	01-05-02	30-04-05
			01-11-98	31-10-01
			01-11-01	31-10-04
			01-11-04	31-10-07
10	M/s. Grandix Pharmaceuticals Ltd.	TN/40549	01-11-00	31-10-03
11	M/s. Ashok Travels	TN/4616	01-07-95	30-06-98
			01-07-98	30-06-01
			01-07-01	30-06-04
12	M/s. Wolf Knit Industries	TN/33657	01-12-03	30-11-06
13	M/s. Emperor Club	TN/45045	01-07-03	30-06-04
14	M/s. Emperor Traveline	TN/28867	01-07-03	30-06-04
15	M/s. GVG Paper Mills Ltd. Unit II	TN/20954A	01-07-04	30-06-07
16	M/s. Centwin	TN/17696	01-09-04	31-08-07
17	M/s. Alankar Business Corpn. Ltd.	TN/56632	01-10-04	30-09-07
18	M/s. Nypro Forbes Products (P) Ltd., Hosur	TN/47337	01-08-03	31-07-06
19	M/s. Prassana Spinning Mills	TN/42762	01-01-03	31-12-05
20	M/s. G.V.G. Paper Mills (P) Ltd. Unit-III	TN/20954B	01-07-04	30-06-07
21	M/s. Durai Charitable Trust	TN/45872	01-08-04	31-07-07
22	M/s. Vision Research Foundation	TN/19938	01-10-04	30-09-07
23	M/s. Jaya Devi Mills (P) Ltd.	TN/42145	01-03-03	28-02-06
24	M/s. Sishya School, Hosur	TN/SL/28030	01-03-01	29-02-04
			01-03-04	28-02-07
25	M/s. Venus PPV Spinning Mills Ltd.	TN/965	01-01-02	31-12-04
			01-01-05	31-12-07
26	M/s. Salzer Electronics Ltd.	TN/33739	01-05-04	30-04-07
27	M/s. Sugavaneswara Spinning Mills (P) Ltd.	TN/SL/21223	01-09-04	31-08-07
28	M/s. Bharat Packaging, Hosur	TN/SL/34712	01-09-99	30-09-02
			01-10-02	30-09-05
29	M/s. Amoeba Telecom (P) Ltd.	TN/45710	01-06-04	31-05-07

Contd...

30	M/s. Ela General (P) Ltd.	TN/49263	01-03-04	28-02-07
31	M/s. Procon Controls	TN/56744	01-09-04	31-08-07
32	M/s. Fumakilla (I) Pvt. Ltd.	TN/45017	01-07-04	30-06-07
33	M/s. PSGR Krishnammal College for Women	TN/CBE/45259	01-01-04	31-12-06
34	M/s. Mal Embroidery	TN/CBE/56419	01-01-03	30-09-06
35	M/s. Coimbatore Spinning & Weaving mills	TN/CBE/54	01-01-04	31-12-06
36	M/s. Surpass	TN/45262	01-08-04	31-07-07
37	M/s. Salzer Exports Ltd.	TN/21973A	01-05-04	30-04-07
38	M/s. Salzer Exports Ltd.	TN/21973	01-05-04	30-04-07
39	M/s. Synergy Log In Systems Ltd.	TN/49385	01-05-04	30-04-07
40	M/s. Shree Bhadra Parks & Resorts Ltd.	TN/55103	01-12-03	30-11-06
41	M/s. Network Clothing Co. (P) Ltd.	TN/47722	01-09-04	31-08-07
42	M/s. J.R. Package (P) Ltd.	TN/SL/34558	01-10-04	30-09-07
43	M/s. Virudhunagar Sarvodaya Sangh	TN/29014	01-01-03	31-12-05
44	M/s. Golden Gates Matr. Hr. Sec. School	TN/SL/25392	01-01-05	31-12-07
45	M/s. Selam Shree Ramavilas Chit co. (P) ltd.	TN/SL/21725	01-02-02 01-02-05	31-01-05 31-01-08
46	M/s. Scope Knowledge Centre (P) Ltd.	TN/30308	01-06-04	31-05-07
47	M/s. S.P. Spinning Mills (P) Ltd.	TN/17741	01-03-02 01-03-05	28-02-05 29-02-08
48	M/s. United Granites (P) Ltd.	TN/SL/28361	01-06-95 01-06-98 01-06-01 01-06-04	31-05-98 31-05-01 31-05-04 31-05-07
49	M/s. St. John's Matr. Hr. Sec. School	TN/28078	01-08-99 01-08-02	31-07-02 31-07-05
50	M/s. Mittal Ispat Ltd.	TN/PC/429	01-03-04	28-02-07
51	M/s. Aluminium Powder Co. Ltd.	TN/20907	01-08-02	31-07-05
52	M/s. Bethal High School	TN/SL/35004	01-11-02	30-10-05
53	M/s. Easi Chemical Manufacturing Ltd.	TN/65200	01-03-04	28-02-07
54	M/s. Bethal Hospital	TN/SL/35005	01-11-02	31-10-04
55	M/s. Mountain Spinning Mills Ltd., Tuticorin	TN/29861	01-03-97 01-03-00 24-06-00	28-02-00 23-06-00 23-06-03
56	M/s. Jayalakshmi Auto Products, Hosur	TN/47399	01-02-02	31-01-05
57	M/s. Penguin Garments (P) Ltd., Madurai	TN/41855	01-12-03	30-11-06
58	M/s. Niranjana Weaving, Madurai	TN/37482	01-04-04	31-03-07
59	M/s. First In Fashion Exports (P) Ltd., Chennai	TN/65334	01-06-04	31-05-07
60	M/s. Vinbros & Co (H.O.), Pondicherry (Alongwith its factory)	TN/PC/35	01-10-03	30-09-06
61	M/s. Beverly Hotels Pvt. Ltd.	TN/49583	01-05-04	30-04-07
62	M/s. Titan Paints & Chemicals Ltd.	TN/3370	01-06-04	31-05-07
63	M/s. United Motors (P) ltd.	TN/9692	01-02-02 01-02-05	31-01-04 31-02-08

Contd...

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.
9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

SURAJ SHARMA
Regional P.F. Commissioner-II

**MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGAINISATION
(HEAD OFFICE)
14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066**

No:

Dated:

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. I

S.O. _____

whereas

the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, / Andhra Pradesh, Kerala, T. Nadu u from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

S. No.	Name of the establishment	Code No.	Period of Exemption	
			From	To
1	M/s. Ushodaya Enterprises	AP/38050	01-08-03	31-07-06
2	M/s. Regency Institute of Technology	AP/36665	01-01-02	31-12-04
3	M/s. Regency Jr. College	AP/31762	01-03-04	28-02-07
4	M/s. Regma Packaging Pvt. Ltd.	AP/32006	01-01-02	31-12-04
5	M/s. P.K.L. Ltd.	AP/19661	01-06-02	31-05-05
6	M/s. Ayushaman Ayurvedic Trust	TN/45945	01-01-05	31-12-07
7	M/s. Alanka Super Market (P) Ltd.	TN/25526	01-12-04	30-11-07
8	M/s. Tejas Ayurvedic Trust	TN/56550	01-01-05	31-12-07
9	M/s. Saraswathi Match Work	TN/20294	01-02-04	31-01-04
10	M/s. Elkayee Spinners (P) Ltd.	TN/41213	01-03-01 01-03-04	28-02-04 28-02-07
11	M/s. Board Ex. India (P) Ltd.	TN/50562	01-02-05	31-01-08
12	M/s. Chinamaya Vidyalaya PAC Ramasamy Raja Mat. Hr. Sec. School	TN/14492	01-12-02	30-11-05
13	M/s. Montage Manufacturers	AP/6140	01-03-04	28-02-07
14	M/s. M.G.B. Motor & Auto Agencies (P) Ltd.	AP/41720	01-07-03	30-06-06
15	M/s. Ashian Herbex Ltd.	AP/34909	01-11-99 01-11-02	31-10-02 31-10-05
16	M/s. Enal Drugs (P) Ltd.	AP/38224	01-07-04	30-06-07
17	M/s. Aghi Enterprises	KR/14591-A	01-01-05	31-12-07
18	M/s. KVR Automobiles	KR/17553	01-10-04	30-09-07
19	M/s. Choice Trading Corp. Pvt. Ltd.	KR/KC/10312	01-08-04	31-07-07

SCHEDULE-I

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of the establishment	Period of Exemption	
			From	To
1	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 4423 dt. 27-02-98	M/s. Accel Transmatic Systems Ltd. (KR/12404)	01-10-99 01-10-02	30-09-02 30-09-05
2	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1897 Dt. 27-01-04	M/s. Vijaya Lakshmi Cashew Company (KR/3136)	24-06-03	23-06-06
3	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1892 Dt. 27-01-04	M/s. Kiltron Electrogramics Ltd. (KR/KK/5207)	01-05-05	30-04-08

08-08-05

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

Contd...

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.

9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

SURAJ SHARMA
Regional P.F. Commissioner-II

**MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGAINISATION
(HEAD OFFICE)
14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066**

No:

Dated:

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. I

S.O. _____

whereas

the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, _____ Tamil Nadu _____ from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

Contd...2

SCHEDULE-I

S. No.	Previous Notification No. & Date	Name of the establishment	Period of Exemption	
			From	To
1	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 07-04-99	M/s. Universal Brakes Pvt. Ltd. TN/11448	01-12-03	29-02-04
2	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 12-01-00	M/s. Karpagam Industries (P) Ltd. TN/21260	01-12-04	30-11-07
3	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ DT. 10-08-99	M/s. Shiva Distilleries Ltd. TN/21049	01-11-04	31-10-07
4	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. M. Thangavelo Havokal TN/626	01-01-03	31-12-05
5	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. T. Jayaraman (HUF) TN/626A	01-01-03	31-12-05
6	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. T. Raghuram Havukal Estate TN/626B	01-01-03	31-12-05
7	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. T. Jayaraman Havukal Estate TN/626C	01-01-03	31-12-05
8	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. T. Raghuram (HUF) Havukal Estate TN/626D	01-01-03	31-12-05
9	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ DT. 30-12-02	M/s. M. Rangasamy (HUF) Havukal Estate TN/626E	01-01-03	31-12-05
10	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. R. Anand Kumar (HUF) Havukal Estate TN/626F	01-01-03	31-12-05
11	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. R. Menenatchi Havukal Estate TN/626G	01-01-03	31-12-05
12	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. A. Harigovind (Minor) Havukal Estate TN/626H	01-01-03	31-12-05
13	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. R. Nandakumar Havukal Estate TN/626I	01-01-03	31-12-05
14	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. R. Vijayakumar Havukal Estate TN/626J	01-01-03	31-12-05
15	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. R. Uma Maheshwari Havukal Estate TN/626K	01-01-03	31-12-05
16	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ Dt. 30-12-02	M/s. Havukal Tea & Produce (P) Ltd. TN/626L	01-01-03	31-12-05

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.
9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

SURAJ SHARMA
Regional P.F. Commissioner-II

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the 29th August 2005

No. C.P.F.C./12/1/2005/EZ

S. O. _____ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

S. No.	Code No.	Name of estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1	WB/42023	M/s. Human Resource/ Support Services, Kolkata	01-10-04	01-10-04
2	WB/38428	M/s. Kumar Concern (P) Ltd., Kolkata	01-04-02	01-04-02
3	WB/43172	M/s. Rishra Peoples Co-op. Credit Society Ltd., Rishra, Hoogly	01-01-05	01-01-05
4	WB/43105	M/s. Alpha Numeric, Konnagar, Hoogly	01-09-04	01-09-04

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments

P. C. PATIR
Regional P.F. Commissioner (C)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 8th November 2005

No. N-15/13/8/1/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st November, 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Madhya Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Madhya Pradesh namely

"The area comprised within villages Sarakia and Simrai in Patwari Halka Number 4, Tehsil Gouharganj, District Raisen."

S. THOMAS
Additional Commissioner (P&D)

No.U-16/53/2002/Med.II(Rajasthan):- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize Dr. Hari Om Narayan Sharma, CMO, Sriganganagar(Rajasthan) to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms for the period of one year from date of joining for Sriganganagar centre and areas to be allocated by State Medical Commissioner, Rajasthan for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

(DR.) KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 9th November 2005

No. N-15/13/13/5/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st November, 2005 from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely :-

Revenue Village	Revenue Pargna	Tehsil	District
(1) Ganeshpur-Rehmanpur (2) Semra (3) Terakhas (4) Utardhauna (5) Shahpur (6) Nizampur-Mallhaur (7) Saraiseikh (8) Mehaura (9) Juggaur (10) Laulai (11) Sikanderpur (12) Sonapur (13) Devaria (14) Chak Malhauri	Lucknow	Sadar Lucknow	Lucknow

S. THOMAS
Additional Commissioner (P&D)

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

(MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi-110 003, the 31st October 2005

No.K-14011/58/NCRPB(26th)-2003-04**PART-A: GENERAL****Section- I: 1.0 Applicability/ General Provisions/ Commencement:-**

- 1.1 This Scheme will be called "NCRPB Medical Attendance Scheme for Pensioners, 2005".
- 1.2 The provisions of this Scheme herein contained shall apply to Group A, B, C & D pensioners of the Board and their dependants.
- 1.3 This Scheme came into effect from 9.7. 2005.

Section- II: 2.0 Membership- Eligibility of self and family:-

- 2.1 Benefits under this Scheme will be applicable to the pensioners of the Board, their families including their dependants.
- 2.2 For the purpose of this Scheme, the definition of family and dependants will be as given in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as amended from time to time.

Section-III 3.0 Provisions

- 3.1 The pensioner shall have to apply in writing for admission to the Scheme.
- 3.2 Photo Identity Cards to the pensioners and their dependants will be issued by the Board on receipt of written request from them, which will be produced by the claimants at the time of taking treatment. (Text of the Identity Card is enclosed.)
- 3.3 The pensioners residing outside the NCT Delhi may get themselves/members of their families treated from the medical practitioners, possessing qualifications not less than MBBS and the cost of such treatment would be reimbursed to them subject to the approved ceiling.

Section IV: 4.0 Monetary limits

- 4.1 The annual ceiling for outdoor treatment for the pensioners shall be as under:-

<u>Category</u>	<u>Pensioners/Family Pensioners*</u>
Group 'A'	Rs.4,300/-
Group 'B'	Rs.2,900/-
Group 'C'	Rs.2,100/-
Group 'D'	Rs.1,760/-

**(The above rates will be subject to revisions from time to time with approval of the Competent Authority.)*

Section V: 5.0 OPD Treatment for special diseases

5.1 In addition to the above monetary limits for OPD treatment, the medical reimbursement will also be admissible for treatment of following special diseases without taking into account the overall monetary ceiling as laid down in para 4.1 above. However, the treatment for such diseases should be taken from Hospitals as mentioned in Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944. They are:

- Cancer
- Diabetes
- Mental diseases
- Poliomyelitis, Cerebral Palsy and Spastics
- Tubercular Diseases
- Leprosy
- Thalasaemia Major

Section VI: 6.0 Indoor medical facilities to pensioners

6.1 For indoor treatment, the pensioner will be entitled for same facilities as available to the serving employees of the Board.

6.2 Post Operative OPD Treatment, towards reimbursement of cost of medicines will also be admissible under the Scheme for the following diseases subject to the conditions laid down in Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944:-

- Cardiac Surgery/ Cardiology
- Oncology
- Organ transplant
- Joint replacement
- Major Neuro-Surgical/ Neurology cases

Section VII: 7.0 Delegation of powers:-

7.1 The powers to interpret these Rules are reserved with the Member Secretary, NCR Planning Board.

7.2 In case any issue is not covered under this Scheme, the provisions of Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 will be applicable and decisions/instructions thereunder shall apply to all pensioners of the Board.

(P.K. MISHRA)
Member Secretary



NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

MEDICAL IDENTITY CARD FOR PENSIONERS AND THEIR DEPENDENTS

Name in Full.....

Name of Father/ Husband.....

Residential Address

.....

Signature of employee.....

Date of issue.....




Photo of
pensioner/
dependents

Signature of Issuing Authority

DETAILS OF DEPENDENTS FOR THE PURPOSE OF MEDICAL BENEFIT

S. No.	Name	Date of Birth	Relationship	Signature of Family members if aged above 12 years
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				

PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH**Notification No. 1-2005/G.R.**

The Central Government, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education, New Delhi, has accorded approval, vide their letter No. F.2-17/2002-U-II) dated 3.8.2005, to the following Regulation:

Regulation 7 of Chapter V (A) relating to 'Conditions of Service of University Employees' at page 112 of Panjab University, Calendar Volume I, 2005 and be given effect to in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication of Government of India Gazette

7. Save as provided in regulations 5 and 8 whenever a Lecturer is to be appointed, a Selection Committee shall consist of the following:

- (i) The Vice-Chancellor to be the Chairperson.
- (ii) Three Experts in the concerned subject out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Syndicate.
- (iii) An academician nominated by the Chancellor.
- (iv) The Dean of the concerned Faculty.
- (v) Head/Chairperson of the concerned Department not below the rank of Professor should sit in the Selection committee. If Chairperson is not Professor, the senior-most Professor would be the member of the Selection Committee. In the absence of any Professor in the Department, the Dean, University Instruction would be the member of the Selection Committee.

A representative of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Women and Physically Handicapped person shall be in the Selection Committee whenever a candidate from any of these categories appears for the interview.

CHANDIGARH – 160014
DATED : 25/11/2005

H. C. MALHOTRA
Joint Registrar

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University this day, _____
Friday 25th November, 2005

(S.S.Bari)
Registrar

THE INSTITUTE OF COSTS & WORKS
ACCOUNTANTS OF INDIA

Kolkata, the 26th February 2002

No. 11-CWR(263—272)/2002.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :—

1. Shri P. K. Verma, BCOM, FICWA, EE-255, Circular Road, Panj Peer, Bagh Karam Baksh, Jalandhar-144001, (Membership No. 13570) is cancelled from 11th January, 2002 to 30th June, 2002, at his own request,
2. Shri R. K. Mittal, MCOM, LLB, AICWA, 50, 3-A, Jai Narain Lane, Opp. Deep Hotel, Hussain Ganj, Lucknow-226001, (Membership No. 17701) is cancelled from 18th June 2001, to 30th June, 2002 at his own request,
3. Shri Sudip Ghosh, BCOM, AICWA, 12/7, Kuchil Sarkar Lane, Howrah-711101, (Membership No. 19654) is cancelled from 6th November, 2001 to 30th June, 2002, at his own request,
4. Shri G. Padmanabhan, BCOM, AICWA, Flat No. 2, Akshaya, 19, 3rd Main Road, Nanganallur, Chennai-600061, (Membership No. 1203) is cancelled from 26th December, 2001, to 30th June, 2002 at his own request,
5. Shri B. S. Tari, MCOM, FICWA, 4, Mayurpankh CHS, Dattapada, Borivli (E), Mumbai-400066, (Membership No. 1976) is cancelled from 3rd January, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,
6. Shri Indu Sharma, MCOM, AICWA, 8, Ram Nagar, Delhi-110051, (Membership No. 16289) is cancelled from 27th August, 2001 to 30th June, 2002 at his own request,
7. Shri K. E. Subramanian, BCOM, AICWA, 18/740, 'Sri Nilayam', Samootham Road, Tali, Calicut-673002, (Membership No. 19699) is cancelled from 2nd November, 2001 to 30th June, 2002 at his own request,
8. Shri Sekhar Bhattacharjee, BCOM(H), AICWA, 17, Lalit Gupta Street, Nimta, Kolkata-700049, (Membership No. 19382) is cancelled from 22nd February, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,
9. Shri Girish M. Nadkarni, BCOM(HONS), MFM, ACS, AICWA, A5-1, Saudamini Complex, Bhusan Colony, Paud Road, Pune-411038, (Membership No. 10060) is cancelled from 20th October, 2001 to 30th June, 2002 at his own request,
10. Shri S. K. Pachisia, BA, LLB, AICWA, Sitaram Bhavan, 4th Floor, 369, Jagannath Shankar Sheth Marg, Chira Bazar, Mumbai-400002, (Membership No. 3204) is

cancelled from 3rd February, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,

S. R. ACHARYYA
Adviser/Secy.

Kolkata, the 24th June 2002

No. 11-CWR(273—282)/2002.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :—

1. Shri D. T. Rambhia, BCOM, LLB, AICWA, 74-B, Swami Samartha Nagar, 3rd Floor, Block No. 50, Mugbhat Lane, Girgaum Road, Mumbai-400004, (Membership No. 8062) is cancelled from 6th February, 2002, to 30th June, 2002, at his own request,
2. Shri Dipak Sen, BSC, LLB, ACIS, FICWA, 342, Jodhpur Park, Kolkata-700068, (Membership No. 6521) is cancelled from 20th March, 2002, to 30th June, 2002 at his own request,
3. Shri A. P. Rane, MCOM, AICWA, 29, Saphalya, Currey Road, Mumbai-400013, (Membership No. 10646) is cancelled from 9th March, 2002, 30th June, 2002 at his own request,
4. Shri R. P. Bhatia, BA, FICWA, 17/42 (FF) Subhash Nagar, New Delhi-110027, (Membership No. 4150) is cancelled from 19th March, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,
5. Ms. Anita Nayyar, MCOM, ACS, FICWA, 1376, Sector 8, Faridabad, (Membership No. 15087) is cancelled from 10th March, 2002 to 30th June, 2002 at her own request,
6. Shri P. N. Birdi, BCOM(HONS), FICWA, RA-49, Inder Puri, New Delhi-110012, (Membership No. 5583) is cancelled from 12th April, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,
7. Shri Amit Kumar Jain, BCOM(HONS), AICWA, 18/A-7, Central Market, Ashok Vihar-I, Delhi-110052, (Membership No. 17139) is cancelled from 24th April, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,
8. Shri Ranjan Kumar Satapathy, BSC(H), AICWA, J-28, Srinivaspuri, New Delhi-110065, (Membership No. 21740) is cancelled from 23rd April, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,
9. Shri Hemant Agarwalla, BCOM, AICWA, 2, Princep Street, Kolkata-700072, (Membership No. 17890) is cancelled from 12th June, 2002 to 30th June, 2002, at his own request,
10. Ms. Prajakta M. Dhere, BCOM, AICWA, 32, Vidisha, 4th Lane, Tulshibagwale Colony, Sahakar Nagar, Pune-411009, (Membership No. 21675) is

cancelled from 19th June, 2002 to 30th June, 2002, at her own request.

V. V. DEODHAR
President

Kolkata, the 31st March 2003

No. 11-CWR(283—304)/2003.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :—

1. Shri Ranidul Goswami, BCOM, AICWA, 2/7, Narayan Roy Road, Barisha, Kolkata-700008, (Membership No. 1215) is cancelled from 8th April, 2002 to 30th June, 2002, at his own request,
2. Shri Sushil Mitra, BCOM, FICWA, Flat 1A, 1/1, Dover Lane, Kolkata-700029, (Membership No. 1328) is cancelled from 26th June, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,
3. Shri P. V. Prasad, MA(ECON), FICWA, 8-3-169/90, Siddhartha Nagar, Hyderabad-500038, (Membership No. 1734) is cancelled from 1st April, 2002 to 30th June, 2002, at his own request,
4. Shri Vasant P. Bendale, AICWA, K-1, Ambedkar Nagar, G. D. Ambekar Road, Parel, Mumbai-400012, (Membership No. 1959) is cancelled from 7th June, 2002, to 30th June, 2002 at his own request,
5. Shri M. Murali, BCOM, AICWA, Flat B, Brindavan Apartments, 40, School Road, Perambur, Chennai-600011, (Membership No. 8877) is cancelled from 28th June, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,
6. Ms. Supriya Radha Krishna, MCOM, AICWA, 216, HMT Sathavahana Nagar, Kukatpally, Hyderabad-500072, (Membership No. 18185) is cancelled from 1st April, 2002 to 30th June, 2002 at her own request,
7. Shri Kajansh Thukral, MCOM, ACS, AICWA, MIG 3399, Urban Estate Phase II, Dugri Road, Ludhiana, (Membership No. 19611) is cancelled from 28th June, 2002 to 30th June, 2002 at his own request,
8. Shri S. S. Sahasrabudhe, BCOM(HONS), AICWA, 5/52, Suchitra, Ghantali Saharivas, Naupada, Thane-400602, (Membership No. 2479) is cancelled from 5th February, 2003 to 30th June, 2003 at his own request,
9. Shri P. Narayana Rao, BA, MCOM, LLB, FCS, FICWA, 47-1-14, Ushodaya Apt., 9 Dr. Sundaram Rd., Danaveipet, Rajahmundry-533103, (Membership No. 2805) is cancelled from 30th September, 2002 to 30th June, 2003, at his own request,
10. Shri V. Purnachandra Rao, MA, FICWA, H. No. 12-13-677/5, Plot No. 250, Street NO. I, Kimtee Colony, Tarnaka, Hyderabad-500017, (Membership No. 3954) is cancelled from 11th November, 2002 to 30th June, 2003, at his own request,
11. Shri B. T. Sau, MCOM, FICWA, Nafar Ch. Naskar Road, Tentulbaria(W), Garia, Kolkata-700084, (Membership No. 5224) is cancelled from 19th December, 2002 to 30th June, 2003, at his own request,
12. Shri M. Balasubramanian, BCOM, LLB, ACS, AICWA, "Sai Krishna Apartments", 65, Temple Road II, Malleswaram, Bangalore-560003, (Membership No. 5906) is cancelled from 22nd November, 2002 to 30th June, 2003, at his own request,
13. Shri G. S. R. Krishna Murty, BA, FICWA, 50-28-10, T.P.T. Colony, Seethammadhara, Visakhapatnam-530013, (Membership No. 6472) is cancelled from 4th October, 2002 to 30th June, 2003 at his own request,
14. Shri O. Shanmuganathan, BA, AICWA, 35/34, Mohanapuri 4th Street, Adambakkam, Chennai-600088, (Membership No. 7843) is cancelled from 5th February, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
15. Shri S. Venkatesh Prasad, BSC, AICWA, Old No. 34, New No. 16, 27th Street, Thillai Ganga Nagar, Chennai-600006, (Membership No. 20277) is cancelled from 20th January, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
16. Ms. Ritu Agarwal, BCOM(HONS), AICWA, Shantikunj, Hill View Park (N), Asansol-713304, (Membership No. 20802) is cancelled from 20th August, 2002 to 30th June, 2003, at her own request,
17. Shri K. V. Sridhar, BCOM, AICWA, No. 4 (Old), 7 (New), 11th Cross Road, Swimming Pool Extension, Malleshwaram, Bangalore-560003, (Membership No. 13361) is cancelled from 17th February, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
18. Shri Ravi Kumar Chona, BCOM(HONS), AICWA, X/3390, Street No. 2, Raghubar Pura No. 2, Gandhi Nagar, Delhi-110031, (Membership No. 22405) is cancelled from 28th February, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
19. Shri Radha Raman Banerjee, BCOM, FICWA, B-11/9, Golf Green, Phase 1, Kolkata-700095, (Membership No. 1759) is cancelled from 12th March, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
20. Shri Kamal Kumar Ghosh, BCOM, FICWA, 257, S. N. Roy Road, Kolkata-700038, (Membership No. 1774) is cancelled from 12th March, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,

21. Shri T. K. Narayanan, BSC, BCOM, AICWA, E-45, Kamraj Road, Block 18, Neyveli-607803, (Membership No. 1549) is cancelled from 12th March, 2003 to 30th June, 2003, at his own request, and
22. Shri Salil Kumar Mitra, AICWA, 700A/1A, 'P' Block, New Alipore, Ground Floor, Kolkata-700053, (Membership No. 3833) is cancelled from 31st March, 2003 to 30th June, 2003, at his own request.

B. V. RAMANA MURTY
President

Kolkata, the 5th December 2003

No. 11-CWR(305—326)/2003.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :—

1. Shri K. B. Pawar, BCOM, FICWA, A4/12, Manav Kalyan, Bangur Nagar, Goregaon (W), Mumbai-400090 (Membership No. 4468) is cancelled from 15th November, 2003 to 30th June, 2004, at his own request,
2. Shri C. S. Murthy, BA, FICWA, 2-18-20, Madhavnagar, Kakinada-533003, (Membership No. 1873) is cancelled from 1st June, 2003 to 30th June, 2004, at his own request,
3. Shri Jyotirmoy Kar Roy, MA, BCOM, FICWA, B 89, Survey Park, P. O. Santoshpur, Kolkata-700075, (Membership No. 241) is cancelled from 28th March, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
4. Shri Asim Kumar Ghosh, MCOM, LLB, FICWA, 27/3, Baishnabghata Road, Flat 8, Kolkata-700047, (Membership No. 1773) is cancelled from 31st March, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
5. Shri K. P. Ravindran, MCOM, AICWA, Flat No. 3, 'B' Block, 5th Floor, Gemini Parsan Apts., Chennai-600006, (Membership No. 5365) is cancelled from 23rd April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
6. Shri N. S. Chaudhary, BCOM(HONS), AICWA, 52-B, Friends Colony, Katol Road, Nagpur-440013, (Membership No. 3585) is cancelled from 31st March, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
7. Shri K. V. Lokiah, MA, AICWA, 589, Dr. Ramasami Salai, K. K. Nagar, Chennai-600078, (Membership No. 7282) is cancelled from 8th May, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
8. Shri M. D. Bangard, BCOM, AICWA, Flat No. B-56/543, Gandhi Nagar, Bandra East, Mumbai-400057, (Membership No. 1760) is cancelled from 1st April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
9. Shri Sovan Patra, BCOM(HONS), AICWA, 77/L, J. N. Lahiri Road, Serampore-712201, (Membership No. 19602) is cancelled from 28th May, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
10. Shri Y. P. Varshney, MCOM, AICWA, Chaiti Marg, Kashipur, Uttaranchal, (Membership No. 4654) is cancelled from 2nd March, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
11. Shri M. D. Bhusari, MA(ECON), AICWA, 15/9, J.P.M. Co-op. Hsg. Society, S. R. Road, Mulund (E), Mumbai-400081, (Membership No. 3734) is cancelled from 1st May, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
12. Shri A. S. R. Prasada Rao, BA, FICWA, Flat No. 310, Mansarovar Heights, Sai Sagar Enclave, Mano Vikas Nagar, Secunderabad-500015, (Membership No. 3768) is cancelled from 16th June, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
13. Shri Chandra Kant Bansal, BCOM(HONS), AICWA, GH-8/162, Paschim Vihar, New Delhi-110087, (Membership No. 22421) is cancelled from 31st May, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
14. Shri P. R. Parekh, BCOM, FICWA, Nitin Nivas, Plot No. 243, Block No. 9, Road No. 3, Jawahar Nagar, Goregaon (West), Mumbai-400062, (Membership No. 2129) is cancelled from 1st April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
15. Shri P. S. Nadkarni, BSC, FICWA, A/31, Mangireesh Premises, 520, Lady Jamshedji Road, Mahim, Mumbai-400016, (Membership No. 922) is cancelled from 1st April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
16. Shri R. Agiwal, BCOM, FICWA, 136, Mahasweta Nagar, Ujjain-456010, (Membership No. 3866) is cancelled from 1st April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
17. Shri Jerry Roy Morris, AICWA, 1, Beau Monde, 15, Pitamber Lane, Mahim, Mumbai-400016, (Membership No. 2428) is cancelled from 1st April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
18. Shri K. L. Madan, MCOM, AICWA, I-14, Naraina Vihar, New Delhi-110028, (Membership No. 3188) is cancelled from 1st April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
19. Shri K. A. Vijaya Raghavan, MCOM, AICWA, No. 7, III Street, Tholkappiar Nagar, Thanjavur-613001, (Membership No. 9100) is cancelled from 17th April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
20. Shri K. K. Dasgupta, BCOM, FICWA, P-68, Lake Town, Block-B, Kolkata-700089, (Membership No. 2860) is cancelled from 15th October, 2003 to 30th June, 2004, at his own request,

21. Shri Debendranath Mukherjee, BCOM, AICWA, "Ashirbad", 4/E, Sitalamata Lane, P.O. Noapara, Kolkata-700090, (Membership No. 4106) is cancelled from 1st April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,
22. Shri V. Subramaniam, BCOM, FICWA, C/12, Aashiana, Venus Colony, Second Cross Street, Alwarpet, Chennai-600018, (Membership No. 1434) is cancelled from 1st April, 2003 to 30th June, 2003, at his own request,

Dr. K. L. JAISINGH
President

Kolkata, the 19th October 2001

No. 16-CWR (1305-1324)/2001—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri Satindra Nath Ray, BCOM, AICWA, Flat No. B-15/301, Peerless Nagar, Sodepur, P.O. Panihati-743 176, (Membership No. 4839) with effect from 23rd February, 1999,
2. Shri Ballabh Das Daga, BCOM, FICWA, A-116, Sector 31, Noida-201 303, (Membership No. 3277) with effect from 28th March, 2001,
3. Shri P. M. Sarma, MA, ACA, AICWA, 3-29-43, Krishna Nagar, Guntur-522 006, (Membership No. 3780) with effect from 23rd September, 1997,
4. Shri Jagdish Rai Bhalla, BA, FICWA, E-190, Greater Kailash-II, New Delhi-110 048, (Membership No. 422) with effect from 31st August, 1999,
5. Shri S. N. Kaza, MA, FICWA, 2, Corporation Place, Kolkata-700 013, (Membership No. 764) with effect from 12th February, 2001,
6. Shri N. Swaminathan, BCOM, FICWA, 41, Chakrapani Street, Membalam, Chennai-600 033, (Membership No. 832) with effect from 1st February, 1999,
7. Shri Ishwar Lal Bhatia, BA, FICWA, D-34, IInd Floor, Ajay Enclave, New Delhi-110 018, (Membership No. 3159) with effect from 29th May, 2000,
8. Shri Pravanshu Kumar Ghosh, ACMA, AICWA, 32, Motilal Gupta Road, Barisha, Kolkata-700 008, (Membership No. 4292) with effect from 6th July, 2000,
9. Shri R. S. Karnik, BA, MCOM, AICWA, J/10, Bimanagar Co-op. Hsg. Society, Sir M. V. Road, Andheri (East), Mumbai-400 069, (Membership No. 4928) with effect from 2nd February, 2001,

10. Shri S. K. Chatterjee, MCOM, AICWA, Ex. Asstt. Financial Adviser, Damodar Valley Corporation, 33 & 33/1, Chetla Central Road, Alipore, Kolkata-700027, (Membership No. 5171) with effect from 20th June, 1990,
11. Shri C. S. Ramamurthi, BSC, ACMA, ACS, AICWA, 11, Narayaneeyam, 22, Temple Avenue, Srinagar Colony, Saidapet, Chennai-600 015, (Membership No. 6747) with effect from 10th September, 2000,
12. Shri L. Venkatasubramanian, BCOM, AICWA, Ex. General Manager-Management Accounts, Burroughs Wellcome (India) Ltd., 16, NGN Vaidya Marg, Bank Street, Mumbai-400 023, (Membership No. 12409) with effect from 31st December, 1994,
13. Shri K. Satyanarayana, BCOM, AICWA, "Gangothri", I Cross, II Main, Tumkur, Vijayanagar-572102, (Membership No. 8443) with effect from 16th August, 2000,
14. Shri K. S. Chandrasekhar, BCOM, AICWA, 'Prashanti Nivas', 1579, 7th Main Road, R.P.C. Layout, Vijayanagar 2nd Stage, Bangalore-560 040, (Membership No. 2215) with effect from 22nd July, 2001,
15. Shri C. V. Natarajan, AICWA, 235, 10th Main Road, Hanumanthanagar, Bangalore-560 019, (Membership No. 442) with effect from 27th July, 2001,
16. Shri D. K. Sheth, MCOM, FICWA, 11, Pritam Apt., Near Maruti Mandir, Karve Road, Kothrud, Pune-411 029, (Membership No. 10460) with effect from 14th June, 2001,
17. Shri Ch. Kameswara Rao, BA, FICWA, HIG 23, Sheela Nagar, Visakhapatnam-530 012, (Membership No. 3826) with effect from 11th July, 2001,
18. Shri Madan Mohan Ray, BCOM, FICWA, Sidheswari Market, Mamra Bazar, Durgapur-713 206, (Membership No. 6874) with effect from 28th May 2001,
19. Shri D. Y. Oke, BCOM, ACA, AICWA, Ex. General Manager (Accounts), Indian Rare Earths Ltd., 103, Market Towers "F", 10th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005, (Membership No. 4949) with effect from 24th May, 2001, and
20. Shri Supriya Rakshit, MCOM, AICWA, P-3, Belegkata Road, Kolkata-700 015, (Membership No. 13229) with effect from 8th May, 2001, on account of death.

S. R. ACHARYYA
Adviser/Secy.

Kolkata, the 19th October 2001

No. 16-CWR (1325-1330)/2001—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants

Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri B. D. Purkayastha, BCOM, LLB, AICWA, A-52, R. K. Nagar, Bilaspur-495 006, (Membership No. 13383) with effect from 28th February, 2001,
2. Shri S. G. Ravi Kumar, BCOM, FICWA, 1545, 39th Cross, 22nd Main, Jayanagar, 4th 'T' Block, Bangalore-560 041, (Membership No. 5806) with effect from 1st April, 2001,
3. Shri Manohar Lal, BCOM, ACA, AICWA, E-477, Greater Kailash II, New Delhi-110 048, (Membership No. 250) with effect from 1st April, 1992,
4. Shri S. N. Bhat, MSC, FICWA, 1/6, Shiveneri, Lallubhai Park, Road No. 2, Andheri (West), Mumbai-400 058, (Membership No. 678) with effect from 18th February, 2001,
5. Shri B. O. Shah, BCOM, AICWA, 10-11, Ram Niwas, Hanuman Road, Vile Parle East, Mumbai-400 057, (Membership No. 1943) with effect from 1st April, 2001, and
6. Shri R. K. Bhattacharyya, MCOM, BT, AICWA, Raghunathpur, P.O. Jhargram-721 507, Dt. Midnapur (W.B.), (Membership No. 4422) with effect from 24th May, 2001, at their own request.

S. R. ACHARYYA
Adviser/Secy.

Kolkata, the 26th February 2001

No. 16-CWR (1331-1337)/2002—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri N. S. Venkatkrishnan, M.A. LLB, FICWA, Flat No. 3, Anusanthi Apts., 12, Fourth Cross Street, CIT Colony, Chennai-600004, (Membership No. 12) with effect from 3rd October, 2001,
2. Shri K. C. Nandi, MCOM, AICWA 11, Dreamland Apts, Vadvli Section, Ambarnath 421501, (Membership No. 2128) with effect from 13th January, 2002,
3. Shri P. Subramanian, MA, LLB, AICWA, Plot No. 10, Sugarmill Colony, Tirunelveli-627001, (Membership No. 4574) with effect from 28th May, 2001,

4. Shri B. C. Bhattacharyya, BSC, FICWA, 7-A, Snuff Mills St., Belgharia, Kolkata-700056, (Membership No. 1765) with effect from 3rd July 2001,
5. Shri C. K. Shah, MCOM, AICWA, G-10, Vrindavan Estate, Pashbhai Patel Park, Opp. Abhishek Colony, Race Course, Vadodara-390015, (Membership No. 5228) with effect from 25th January, 2000,
6. Shri K. Ganapathy, MCOM, AICWA, 78C, Type II Qrs., Block 7, Neyveli-607803, (Membership No. 10149) with effect from 20th October, 2001,
7. Shri Bimalendu Sen, BA, MCOM, LLB, AICWA, 68/5/1, M. G. Road, Thakurpukur, Kolkata-700063, (Membership No. 2175) with effect from 11th September, 2001 on account of death.

S. R. ACHARYYA
Adviser/Secy.

No. 16-CWR (1338-1339)/2002—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of

1. Shri C. S. Mahadevan, BCOM, AICWA, House No. C/2-146, Indranagar, Jamshedpur-831008, (Membership No. 1541) with effect from 27th December, 2001,
2. Shri H. S. Shankaran, BSC, FICWA, 211, Easwari Niwas, (Behind Apex Bank) I Main, WCR II Stage, Bangalore-560086, (Membership No. 1342) with effect from 18th October, 2001 at their on request.

S. R. ACHARYYA
Adviser/Secy.

Kolkata, the 24th June 2002

No. 16-CWR (1340-1344)/2002—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri T. C. Sundaram, BA, FICWA, 19A, Upstairs, Porur Somasundaram Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai-600 017, (Membership No. 157) with effect from 25th March, 2002,

2. Shri K. V. Subba Rao, BCOM, FICWA 23-22-1, Sivalayam Street, Visakhapatnam-530 001, (Membership No. 449) with effect from 30th November, 2001,
3. Dr. Manohar Dattatreya Apte, BSC, BCOM, PHD, FCMA, FICWA, 1103/A-2, Adarsh Colony, Pune-411 016, (Membership No. 933) with effect from 6th May, 2002,
4. Shri S. P. Somasundaram, MCOM, MA, BGL, ACS, AICWA, 1-A, Mambalathan Tank East Bank, P. Pudupatty-622 408, Dt. Pudukkottai, (Membership No. 3239) with effect from 25th February, 2002, and
5. Shri Mam Chand Aggarwal, BA, FICWA, House No. 23, Sector 15, Panchkula-134113, (Membership No. 5160) with effect from 17th January, 2002 on account of death.

V. V. DEODHAR
President

No. 16-CWR (1345-1350)/2002—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri V. Aiyah, BSC, ACMA, FICWA, 25/4 (Old No. 11/4), Alamelu Apts., Alamelunangapuram, Mylapore, Chennai 600 004, (Membership No. 1353) with effect from 22nd November, 2000,
2. Shri M. K. Dabholkar, BCOM, AICWA, 56, 'Hans', Kansai Section, Ambarnath-421 501, Dt. Thane, Maharashtra, (Membership No. 1589) with effect from 19th March, 2002,
3. Shri S. R. Rao, BCOM, AICWA, 7/162B, Adityalaya, Lady Jehangir Road, Dadar East, Mumbai-400 014, (Membership No. 2315) with effect from 1st April, 2002
4. Shri L. Hansarvotham, BA, BCOM, AICWA, 31/486, Novarose CHS Ltd., St. Dominic Road, Bandra, Mumbai-400 050, (Membership No. 3925) with effect from 1st April, 2002,
5. Shri Pankaj L. Shah, MCOM, AICWA, 5A, Mayfair Grace, 2158, New Modikhana, Pune-411 001, (Membership No. 6789) with effect from 13th April, 2002, and
6. Shri S. K. Parnami, MA (ECON), AICWA, 128/1, Sector 55, Chandigarh-160 055, (Membership No. 9209) with effect from 12th March, 2002 at their own request.

V. V. DEODHAR
President

Kolkata, the 31st March 2003

No. 16-CWR (1351—1373)/2003—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri U.R. Padmanabhan, FICWA, 10, First Main Road, Housing Board Colony, Kotturpuram, Chennai-600 085, (Membership No. 69) with effect from 3rd October, 2002.
2. Shri R. Sundaresan, MA, MCOM, BL, AICWA, Plot No. 1547, 13th Main Road, Anna Nagar West, Chennai-600 040, (Membership No. 158) with effect from 21st April, 2002.
3. Shri Sailendra Nath Mukherjee, MCOM, FICWA, Sai Smriti, Sarkarpara Lane, Opp. Sarkarpara School, Sheoraphuli-712 223, (Membership No. 271) with effect from 19th July, 2002.
4. Shri K. Syama Rao, AICWA, 1257, 77th Street, 12 Sector, K.K. Nagar, Chennai-600 078, (Membership No. 464) with effect from 30th June, 2002.
5. Shri Mukund Bapurao Chavare, BCOM, FICWA, A-5, Malkansa Society, 41/5, Erandvane, Paud Phata, Karve Road, Pune-411038, (Membership No. 583) with effect from 12th September, 2002.
6. Shri S. Pandurangaiah, BA, DIP, MA, FICWA, Ex-General Manager (Finance), BHEL, R.C. Puram, Hyderabad-500 032, (Membership No. 1842) with effect from 31st December, 2002.
7. Shri Verkatarman Sivaraman, AICWA, Flat 201, 2nd Floor, Anubhav, 29, Jogeshwari CHS, Jogeshwari East, Mumbai-400 060, (Membership No. 1950) with effect from 18th September, 2002.
8. Shri Hemendra Nath Banerjee, MCOM, ACS, FICWA, 5/1K, Raja Apurba Krishna Lane, Kolkata-700 050, (Membership No. 2337) with effect from 7th August, 2002.
9. Shri Dina Nath Chaturvedi, MCOM, FCA, FICWA, 502/602, Adibaba, 16th Road, Off. Ramkrishna Mission Road, Santacruz (West), Mumbai-400054, (Membership No. 2462) with effect from 1st February, 2001.
10. Shri S. N. Srivastava, MCOM, FCA, FICWA, 1349, Vasant Kunj, New Delhi-110 070, (Membership No. 2697) with effect from 24th November, 2001.
11. Shri M. Raghava, BCOM, AICWA, A2/8, Siddharthanagar, Goregaon, Mumbai-400 062, (Membership No. 3613) with effect from 19th November, 2001.
12. Shri Shantaram M. Wagle, BSC, AICWA, Suyash, 37, Saraswati Baug, Jogeshwari (East), Mumbai-400 060,

(Membership No. 3863) with effect from 17th May, 1998.

13. Shri M. V. Subba Rao, BCOM, LLB, FICWA, D/166, Koel Nagar, Rourkela-769 014, (Membership No. 4573) with effect from 11th September, 2002.
14. Shri D.V. Subramanyam, BCOM, ACS, FICWA, 5-114, Bhavani Nagar, Behind Dilsukhnagar Bus Depot, Hyderabad-500 036, (Membership No. 5472) with effect from 19th September, 1996.
15. Shri K. Padmanabh, BCOM, AICWA, Ex-Asstt. Manager (F&A)—Cost, Rourkela Steel Plant, SAIL, Admn. Bldg., Rourkela-769 011, (Membership No. 6678) with effect from 11th September, 2002.
16. Shri R. Padmanabhan, BTECH, AICWA, Flat No. 3, Krishna Apartments, Four Bungalows, Andheri West, Mumbai-400 053, (Membership No. 6781) with effect from 15th October, 1992.
17. Shri D. K. Aggarwal, BA, LLB, AICWA, A-10/3A, Kohinoor Apartments, Kalkaji Extn., New Delhi-110 019, (Membership No. 10281) with effect from 22nd August, 2002.
18. Shri Gopalkrishnan P. Nair, BSC, AICWA, B5, Neelkanth Chhaya, R. B. Mehta Road, Ghatkopar (East) Mumbai-400 077, (Membership No. 12507) with effect from 16th August, 2002.
19. Shri G. V. Kamath, MCOM, AICWA, Ex-Costing Officer, M/s. Hercules Hoists Ltd., 110, Minerva Indl. Estate, Mulund (W), Mumbai-400 080, (Membership No. 14378) with effect from 24th December, 2002.
20. Shri K. Shankar, MA, AICWA, No. 27, LIC Colony, Dr. Radha Krishnan Nagar, Tiruvanmiyur, Chennai-600 041, (Membership No. 18242) with effect from 30th September, 2002.
21. Shri Deepak Balasubramanian, BE, AICWA, C-4, Woodland, 23, Dr. Raghunath Marg, Bandra, Mumbai-400 050, (Membership No. 20231) with effect from 31st January, 2002.
22. Shri B. Venkat Narsaiah, BCOM, LLB, AICWA, 1-8-702/43, Padma Colony, Nalla Kunta, Behind Shankermutt, Hyderabad-500 044, (Membership No. 1550) with effect from 18th December, 2002, and
23. Shri Rajagopalan Melatur Panchapagisan, BA, FICWA, 30/4, Balakrishna Road, Ramaniyam Flats, Valmikinagar, Chennai-600 041, (Membership No. 390) with effect from 20th January, 2003.

B. V. RAMANA MURTY
President

Kolkata, the 31st March. 2003

No. 16-CWR (1374—1385)/2003—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of

powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri S. Krishnasankaran, BA, AICWA, No. 6, Sixth Cross, Bharathi Nagar, Laws Pet P.O., Pondicherry-605 008, (Membership No. 55) with effect from 30th December, 2002,
2. Shri K.L.N. Kanaka Raju, BCOM, AICWA, 6-3-609/124A, Anand Nagar, Khairatabad, Hyderabad-500 004, (Membership No. 850) with effect from 1st July, 2002,
3. Shri V. K. Kotak, BA, ACIS (LOND), ACS, FICWA, C-11, Block-C, Greater Kailash (One), New Delhi-110 048, (Membership No. 640) with effect from 12th October, 2002,
4. Shri M. Krishnamoorthy, FICWA, Plot 38, Kannabiran Colony, Door 2 (New 19), Kannammal Street, Saligramam, Chennai-600 093, (Membership No. 1724) with effect from 7th October, 2002,
5. Shri B. K. Shivarao, BA, ACA, AICWA, 6, Mahipat Society, Near Amar Hind Mandal, Gokhale Road (North), Dadar (West), Mumbai-400 028, (Membership No. 1866) with effect from 1st April, 2003,
6. Shri N. L. Khanna, FICWA, 325, Sector 16, Panchkula (Haryana), (Membership No. 2656) with effect from 20th February, 2003,
7. Shri H. M. Lala, BCOM, FICWA, 72, "Vrindavan", L.B. Shastri Marg, Ghatkopar, Mumbai-400 086, (Membership No. 2903) with effect from 5th January, 2003,
8. Shri K. M. Desai, BA, AICWA, No. 46, 4th Main Road, 2nd Block, 3rd Stage, Basawashwar Nagar, Bangalore-560 079, (Membership No. 3896) with effect from 22nd August, 2002,
9. Shri N. R. Kumar, BCOM, ACA, AICWA, 10, Deivashikamani Road, Royapettah, Chennai-600 014, (Membership No. 4686) with effect from 15th October, 2002,
10. Shri K. M. Lal, BCOM, AICWA, 502-B, Suman Apt., Lokhandwala Complex, Off. Four Bungalows, Andheri (W), Mumbai-400 053, (Membership No. 9505) with effect from 16th October, 2002,
11. Shri Subrata Banerjee, BCOM (HONS), AICWA, 188/8A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata-700 045, (Membership No. 22079) with effect from 16th August, 2002 and
12. Shri C. P. S. Menon, BCOM, ACMA, FICWA, 2D, Eden Apts., 1, Kilpauk Garden Road, 1st Street, Kilpauk, Chennai-600 010, (Membership No. 3684) with effect from 31st March, 2003 at their own request.

B. V. RAMANA MURTY
President

Kolkata, the 5th December 2003

No. 16-CWR (1386—1408)/2003—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (I) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri J. P. Berry, MA, ACMA, FICWA, S-202, Greater Kailash II, New Delhi-110 048, (Membership No. 2837) with effect from 25th May, 2003,
2. Shri C. M. Nanjundappa, BSC, AICWA, 407, 8th 'B' Main Road, Jayanagar IV Block West, Bangalore-560 011, (Membership No. 750) with effect from 10th September, 2003,
3. Shri K. R. Venkiteswaran, BCOM, AICWA, 35, Anubhav Bldg, LIC Colony, R. P. Road, Mulund (W), Mumbai-400 080, (Membership No. 2483) with effect from 27th May, 2000,
4. Shri Sudhangsu Bhusan Pal, BA, FICWA, Rampur Road, Bankura-722 101, (Membership No. 286) with effect from 28th February, 1999,
5. Shri T. M. Krishnan, MA, ACA, FICWA, 7, Lakshipuram Road, Royapettah, Chennai-600 014, (Membership No. 116) with effect from 10th November, 2002,
6. Shri R. Hariharan, BCOM, AICWA, Rama Nivas, T. C. 23/513, Chinachalai Street, Thiruvananthapuram-695 036, (Membership No. 1216) with effect from 17th April, 2003,
7. Shri Jyotirmoy Mukherjee, MCOM, FICWA, 190C, Parnashree, First Floor, Flat 3, Kolkata-700 060, (Membership No. 4040) with effect from 3rd December, 2002,
8. Shri R. Balagangadharan, MA, BCOM, FCA, FCS, FICWA, 683, Mount Road, Chennai-600 006, (Membership No. 14625) with effect from 3rd February, 2001,
9. Shri N. P. Gopalakrishnan, MSC, FICWA, Sreepadam, Illom Road, Kochi-682 016, (Membership No. 686) with effect from 28th May, 2003,
10. Shri Rakesh K. Malhotra, BCOM, AICWA, 9, Hanuman Sharan, (2nd Floor), 87A, Bomanji Petit Road (Warden Rd.), Mumbai-400 028, (Membership No. 6653) with effect from 4th February, 2003,
11. Shri M. O. Joseph, FICWA, Ex. General Manager, CASDA International Ltd., P.O. Box 34704, Lusaka, Zambia, (Membership No. 2511) with effect from 25th January, 2002,
12. Shri M. N. Baskaran, BCOM, LLB, AICWA, Port of Fujairah, P.O. Box 787, Fujairah, U.A.E., (Membership No. 6013) with effect from 26th June, 2001,
13. Shri Ratan Chandra Mondal, BCOM, FICWA, 35/1, Sree Charan Sarani, Bally-711 201, (Membership No. 2913) with effect from 30th April, 1994,

14. Shri N. Venkataswami, FICWA, No. 53, Annaiah Reddy Road, Ulsoor, Bangalore-560 008, (Membership No. 646) with effect from 31st December, 1992,
15. Shri T. Kameswara Rao, BCOM, FCA, FICWA, Manton House, Apt. 4A, 139-0585 Drive, Kew Gardens, Queens, New York 11435-2703, U.S.A., (Membership No. 1144) with effect from 30th April, 2001,
16. Shri V. Subramanian, BCOM, ACA, AICWA, No. 4, Tatwa Bhavana, Plot No. 39, Pestom Sagar, Mumbai-400 089, (Membership No. 3387) with effect from 30th September, 1999,
17. Shri V. Varadarajan, BCOM, AICWA, Plot No. 41, Door No. 10 (Old 11E), III Main Road, Jagannathapuram Velachery, Chennai-600 042, (Membership No. 620) with effect from 31st October, 2001,
18. Shri Ramesh Chandra Goyal, MA, BCOM, FICWA, E-416, Greater Kailash II, New Delhi-110 048, (Membership No. 36) with effect from 31st December, 2001.
19. Shri J. K. Banik, MCOM, AICWA, Ex. Accountant Works, Coates of India Ltd., Transport Depot Road, Taratala, Kolkata-700 088, (Membership No. 12622) with effect from 1st January, 2003,
20. Shri C. N. Ghariwala, BA, ACMA, AICWA, No. 1, Krishna Kunj Soc., Near Indoor Stadium, Off. Ghod Dod Road Athwa Lines, Surat-395 007, (Membership No. 7431) with effect from 24th March, 2003,
21. Shri R. S. Kanegaonkar, BCOM, AICWA, 204, Sunrise 'A' Wing, Apnagar, Unit 7, Swami Samarth Nagar, Andheri (W), Mumbai-400 053, (Membership No. 1690) with effect from 20th May, 2003,
22. Shri K. Sundararaman, BSC, BLACS, AICWA, Ex-Dy. General Manager (F&A), Airports Authority of India, Madras Airport Project, Meenabakkam, Chennai-600 027, (Membership No. 3388) with effect from 31st December, 2002, and
23. Shri Y. P. Puri, MA (ECON & ENG), FCMA, AICWA, C/140, Kirti Nagar, New Delhi-110 015, (Membership No. 2735) with effect from 27th January, 2003, on account of death.

Dr. K. L. JAISINGH
President

Kolkata, the 5th December 2003

No. 16-CWR (1409—1422)/2003—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (I) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of

the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri R. Govindarajan, BCOM, AICWA, 32, 28th Cross Street, Besant Nagar, Chennai-600 090, (Membership No. 806) with effect from 25th November, 2003,
2. Shri A. R. Kavarana, BCOM, ACMA, AICWA, 'Samarth', 607C, Khareghat Road, Dadar, Mumbai-400 014, (Membership No. 1393) with effect from 22nd September, 2003,
3. Shri Gyan Prakash Gupta, MCOM, FICWA, J-19, Sector No. 12, Noida-201 301, (Membership No. 2148) with effect from 6th October, 2003,
4. Shri Manjunath Chatterjee, BSC, FICWA, A-8/416, Kalyani-741 235, Dt. Nadia, W.B., (Membership No. 4986) with effect from 9th May, 2003,
5. Shri Mohan V. Patwardhan, MCOM, FICWA, 47, Jaivijay Society, Highway, Sahar, Mumbai-400 099, (Membership No. 2312) with effect from 21st May, 2003,
6. Shri Kishin Jivatram Malkani, BSC, AICWA, 40, Lovedale Apts, Miniodeso Marg, Colaba, Mumbai-400 005, (Membership No. 2246) with effect from 19th July, 2003,
7. Shri H. C. Mathur, MCOM, AICWA, Pundarikaaksh, A-110, Raghu Marg, Hanuman Nagar, Khatipura, Jaipur-302 021, (Membership No. 4104) with effect from 12th July, 2003,
8. Shri P. Sundaresan, BA, FICWA, Flat No. 203, Bldg. No. D2, Lok Upvan, Phase 2, Smt. Gladys Alvares Road, Off. 2nd Pokhran Road, Thane (West)-400 601, (Membership No. 2573) with effect from 18th July, 2003,
9. Shri Surendra Khemka, MCOM, FCA, FCS, FICWA, F-170, Rampath, Shyam Nagar Extn., Jaipur-302 019, (Membership No. 6135) with effect from 25th August, 2003,
10. Shri M. Seetharaman, BA, FICWA, New No. 39, 5th Main Road, Kasturba, Nagar, Adyar, Chennai-600 020, (Membership No. 831) with effect from 17th September, 2003,
11. Shri L. Chandramouli, BSC, AICWA, 10, Dandapani Street, T. Nagar, Chennai-600 017, (Membership No. 11195) with effect from 14th October, 2003,
12. Shri Y. P. Dhir, BA (HONS), AICWA, 1321, Sector 18-C, Chandigarh-160 018, (Membership No. 1907) with effect from 19th September, 2003,
13. Shri V. S. Bhansali, BCOM, AICWA, Nandram Market, Room No. 603, East Block, P-4, New Howrah Bridge Approach Road, Kolkata-700 001, (Membership No. 2044) with effect from 1st July, 2003, and

14. Shri K. K. Rangarajan, MCOM, FICWA, 920, 9th Main, 9th Cross, Dr. Srinivasaiah Block, BEML Layout III Stage, Rajeshwari Nagar, Bangalore-560-098, (Membership No. 1416) with effect from 30th May, 2003 at their own request.

Dr. K. L. JAISINGH
President

Kolkata, the 19th March 2002

No. 18-CWR (335)/2002—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri Bal Krishan Ajmani, MCOM, AICWA, 1249, Sector 44B, Chandigarh-160 047 (Membership No. 5242) with effect from 18th January, 2002.

S. R. ACHARYYA
Adviser/Secy.

Kolkata, the 24th June 2002

No. 18-CWR (336—337)/2002—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri Ramachandra Ramanathan, BCOM, AICWA, No. 10, Rajith Road (Old No. 7), Kotturpuram, Chennai-600 085 (Membership No. 1267) with effect from 9th April, 2002 and Shri A. K. Venkateswaran, ACS, AICWA, B2, First Floor, Venkateshwara Apartments, Behind Krupa Complex, Neredmet, Safilguda, Secunderabad-500 056 (Membership No. 893) with effect from 6th March, 2002.

V. V. DEODHAR
President

Kolkata, the 29th September 2003

No. 18-CWR (338—339)/2003—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the names of Shri Ashok Jolly, BCOM, AICWA, D/503, Kaveri Apartments, Alkhananda, New Delhi-110 019 (Membership No. 5070) with effect from 10th June, 2003 and Shri Satpal

Kumar Arora, MCOM, LLB., ACS, AICWA, 205, Fancy Apartment, 19, Vasundhara Enclave, Delhi-110 096 (Membership No. 6569) with effect from 24th September, 2003.

Dr. K. L. JAISINGH
President

Kolkata, the 23rd February 2004

No. 18-CWR (340)/2004—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works

Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri Ramaniklal Jayantilal Mehta, BSC, FICWA, 42, Arunoday Society, A/9, Vendemataram Flats, Alkapuri, Vadodara-390 007 (Membership No. 2199) with effect from 15th January, 2004.

Dr. K. L. JAISINGH
President